



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16—जनवरी 22, 2010 (पौष 26, 1931)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16—JANUARY 22, 2010 (PAUSA 26, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2010

सेना शाखा

अरुण शर्मा (वीएस-1156के), आरवीसी, 01 जून 2009

इन्द्रजीत सिंह (वीएस-1157एम), आरवीसी, 01 जून 2009

ए वी बागुर
अवर सचिव

सं. 31, दिनांक 14 दिसम्बर 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष सेना अनुदेश
4/2001 के तहत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

नियमित सेना

अल्प कालीन कमीशन

परखाधीन कप्तान के रैंक में

मयूर वार्धनई (वीएस-1148एल), आरवीसी, 01 जून 2009
तारकनाथ भुनिया (वीएस-1149एन), आरवीसी, 01 जून 2009
नरेश कुमार (वीएस-1150एच), आरवीसी, 01 जून 2009
विकास शर्मा (वीएस-1151एल), आरवीसी, 01 जून 2009
राजेश शर्मा (वीएस-1152एन), आरवीसी, 01 जून 2009
गुरजीत सिंह बाली (वीएस-1153डब्ल्यू), आरवीसी, 01 जून 2009
अंशुल अरोड़ा (वीएस-1154वाई), आरवीसी, 01 जून 2009
पुष्पेन्द्र सिंह क्षत्रीय (वीएस-1155एफ), आरवीसी, 01 जून 2009

सं. 32, दिनांक 15 दिसम्बर 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कमल सिंह (जेसी-519432एम), 01 मई 2009
सूबेदार मोहिन्दर सिंह, शौर्य चक्र (जेसी-519488वाई), 01 मई 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार महिन्दर सिंह (जेसी-520454एक्स), 18 अप्रैल 2009*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 दिसम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार सोहन (जेसी-520372पी), 25 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से)

नायब सूबेदार मुबारक सिंह (जेसी-520503पी), 06 मई 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2009 से)

नायब सूबेदार परमिन्दर कटोच (जेसी-520509डब्ल्यू), 27 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2009 से)

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द धीमान (जेसी-520106डब्ल्यू), 22 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

नायब सूबेदार जरलाल सिंह (जेसी-520335एफ), 04 मई 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

नायब सूबेदार वेद प्रकाश ठाकुर (जेसी-520378डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक उधम चन्द (जेसी-520262ए), 04 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

नायब सूबेदार लिपिक दिले राम (जेसी-520268एफ), 01 मई 2009

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोहर सिंह (जेसी-519477एम), 03 मार्च 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से)

सूबेदार तीर्थ राम (जेसी-519309एन), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप चन्द (जेसी-520259ए), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-520466एम), 19 मार्च 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार सालवान सिंह (जेसी-520567ए), 08 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार फरमान चन्द (जेसी-520325एक्स), 01 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी 2009 से)

नायब सूबेदार पूरण सिंह (जेसी-520424ए), 21 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

नायब सूबेदार केश राज (जेसी-520440एक्स), 06 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक सी मारिया विलमट (जेसी-520252डब्ल्यू), 18 मार्च 2009 *

*(सूबेदार के लिपिक रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से)

नायब सूबेदार लिपिक शंकर दत्ता (जेसी-520266डब्ल्यू), 17 मार्च 2009 *

*(सूबेदार के लिपिक रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से)

नायब सूबेदार लिपिक बाबु राम शर्मा (जेसी-520253वाई), 04 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के लिपिक रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

नायब सूबेदार लिपिक संजय कुमार (जेसी-520267वाई), 03 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

3 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

रैंक, नाम, जेसी नं. और पदोन्नति की तिथि

सूबेदार राम बहादुर बुरा (जेसी-607464एक्स), 18 जनवरी 2009/ 01 जनवरी 2009 *

सूबेदार जग बहादुर गुरूंग (जेसी-607314एफ), 01 मार्च 2009/ 01 फरवरी 2009 *

सूबेदार यम बहादुर थापा (जेसी-607519डब्ल्यू), 06 अप्रैल 2009/ 01 मार्च 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

9 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कृष्णा बहादुर अधिकारी (जेसी-629525के), 28 अगस्त 2008/04 अगस्त 2008 *

सूबेदार लिल बहादुर थापा (जेसी-629567डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2008/
01 अक्टूबर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-429112डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-429077वाई), 01 मई 2009

सूबेदार सूरजीत सिंह (जेसी-429456पी), 01 जून 2009

सूबेदार जगदीश राज (जेसी-429246पी), 01 जून 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार परबोध सिंह (जेसी-429862पी), 01 मई 2008

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-430188एच), 24 जून 2008

नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-430138एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार नीम चन्द (जेसी-430154पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-430182एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार दर्शन लाल (जेसी-430148एफ), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-430150वाई), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार धरम सिंह (जेसी-430158एल), 21 जनवरी 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-430293वाई), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-430020डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-430033एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार दूनी चंद (जेसी-430237ए), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार राम चरण शर्मा (जेसी-430274एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-430128एन), 01 मई 2009

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-429159एफ), 01 फरवरी 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-430105एन), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-429981एल), 07 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-429983डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-429611एल), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-429673एल), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार चनन सिंह (जेसी-429726वाई), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-430123पी), 01 फरवरी 2009

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार तरलोक सिंह (जेसी-428603ए), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सर्वजीत सिंह (जेसी-429853एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुरेन्द्र पॉल (जेसी-430127एल), 01 अप्रैल 2009

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-498790एफ), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-498791के), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-499484वाई), 07 फरवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
08 जनवरी 2009)

नायब सूबेदार अमीर सिंह (जेसी-499550डब्ल्यू), 14 मार्च 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 फरवरी 2009)

नायब सूबेदार अजैब सिंह (जेसी-499596वाई), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-499612एल), 28 मार्च 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
05 मार्च 2009)

नायब सूबेदार मनी सिंह (जेसी-499565वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499615वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499639एच), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अशोक कुमार यादव (जेसी-499580एन),
01 अप्रैल 2009

(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009)

नायब सूबेदार लिपिक अमर सिंह (जेसी-499630एन), 16 मार्च 2009

(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2009)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-498606एल), 01 मई 2009

सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-498660वाई), 01 मई 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-499683एम), 01 मई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007)

नायब सूबेदार गुरतेज सिंह (जेसी-499453वाई), 15 जनवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008)

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-499463एच), 16 जनवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008)

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-499635एम), 09 जनवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009)

नायब सूबेदार हरनेक सिंह (जेसी-499381ए), 30 अप्रैल 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-499382एच), 01 मई 2009

कुमाऊँ रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार दिवान गिरि गोस्वामी (जेसी-539144एफ), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-539349डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2008/
01 दिसम्बर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से दी गई है)

सूबेदार उमेश्वर सिंह (जेसी-539291के), 19 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2009 से दी गई है)

नागा रेजिमेन्ट

सूबेदार बी डी बैंगम आनल (जेसी-590017पी), 02 मार्च 2009/
01 मार्च 2009 *

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2009 से दी गई है)

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार बच्चन लाल (जेसी-592530पी), 04 फरवरी 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 दिसम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार मंजूर अहमद भट, एसएम (जेसी-592621वाई), 02 अप्रैल 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अप्रैल 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार (लिपिक) सवरन सिंह काटल (जेसी-592633एन), 02 मई 2009

(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में 01 मई 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार विजय कुमार (जेसी-592667एफ) 15 अप्रैल 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अप्रैल 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-592429पी) 20 अप्रैल 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अप्रैल 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार मुल्ख राज (जेसी-592589पी), 01 अप्रैल 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अप्रैल 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर इन्दर पाल सिंह (जेसी-478804पी) 01 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर राज पाल सिंह (जेसी-478861डब्ल्यू) 01 मई 2009

सूबेदार के रूप में

सूबेदार राकेश सिंह (जेसी-479581ए), 01 मार्च 2008

सूबेदार महाराज सिंह (जेसी-479619एन), 05 मई 2008/28 मार्च 2008

सूबेदार बली अहमद साह (जेसी-479777एच), 30 नवम्बर 2008/
01 जून 2008

सूबेदार समय राज सिंह (जेसी-479772के), 04 सितम्बर 2008/
01 अगस्त 2008

सूबेदार किशोर सिंह (जेसी-479750एल), 11 अक्टूबर 2008/
01 सितम्बर 2008

सूबेदार नागर मल (जेसी-479809ए), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार जश राम सिंह (जेसी-479635एल), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार सुरेन्द्र पाल (जेसी-479890एक्स), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार अजय अदक (जेसी-479444डब्ल्यू), 01 मई 2009/
01 नवम्बर 2008

सूबेदार रविन्द्र पाल सिंह (जेसी-479868एम), 12 नवम्बर 2008/
01 नवम्बर 2008

सूबेदार राम सिंह (जेसी-479845एल), 01 जनवरी 2009

सूबेदार राम सरन (जेसी-479768एफ), 01 फरवरी 2009

सूबेदार किशन सिंह (जेसी-479861एच), 07 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009

सूबेदार तौहिद हुसैन (जेसी-479872पी), 09 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009

सूबेदार राम परवेश सिंह (जेसी-479746एफ), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार शिशु पाल सिंह (जेसी-479950एफ), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार गुलाब सिंह गौड (जेसी-479919पी), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार निहाल सिंह चौहान (जेसी-479803वाई), 01 मई 2009

सूबेदार इन्दर जीत सिंह (जेसी-479867के), 01 मई 2009

सूबेदार मेजर सन्तोश कुमार मिश्रा (जेसी-478792एल), 08 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर राजेश कुमार सिंह (जेसी-479047एक्स), 09 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर नरेन्द्र सिंह (जेसी-479102एक्स), 21 मई 2009

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार आर कृष्णा मूर्ति (जेसी-479717एन), 22 अप्रैल 2009/01 अक्टूबर 2008

सूबेदार करम सिंह कारकी (जेसी-479723एफ), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार के रूप में

सूबेदार हन्स राज (जेसी-479848वाई), 10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008

सूबेदार सन्त राम (जेसी-479836के), 16 अक्टूबर 2008/01 जुलाई 2008

सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-479476वाई), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार लाभ सिंह (जेसी-479863एन), 05 सितम्बर 2008

सूबेदार विशाल कुमार इन्दा (जेसी-479786के), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार किशन कुमार (जेसी-479589एफ), 15 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008

सूबेदार शतीश कुमार (जेसी-479660के), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार गजानन्द यादव (जेसी-479690एफ), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार वेदपाल सिंह (जेसी-479783डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

सूबेदार बलदेवा राम (जेसी-479810पी), 01 जनवरी 2009

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-479859एल), 01 जनवरी 2009

सूबेदार जीत पाल सिंह गूजर (जेसी-479595पी), 07 मई 2009/31 जनवरी 2009

सूबेदार जय चन्द (जेसी-479707के), 01 फरवरी 2009

सूबेदार जोग सिंह भाटी (जेसी-479882वाई), 01 फरवरी 2009

सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-479814एल), 20 मार्च 2009

सूबेदार श्री पाल सिंह (जेसी-479794एच), 11 मई 2009/01 अप्रैल 2009

सूबेदार किशन पाल (जेसी-479839एक्स), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार सतबीर (जेसी-479954एच), 01 अप्रैल 2009

मराठ लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सखाराम शंकर चालके (जेसी-458396एन), 01 अगस्त 2008+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

सूबेदार ग्यान चंद (जेसी-458109वाई), 17 मार्च 2009+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

सूबेदार पांडुरंग शामु देसाई (जेसी-458809एम), 01 जनवरी 2009+

सूबेदार जाधव जयवंत मारुती (जेसी-458692वाई), 06 मार्च 2009+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

सूबेदार लक्ष्मण वंडु (जेसी-458642एन), 05 फरवरी 2009+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

सूबेदार लाडु भानु गावडे (जेसी-458583एम), 06 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

सूबेदार मारुती गणपति शिंदे (जेसी-458373एम), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार इंगले महादेव मोतीरामजी (जेसी-458437एम), 02 मार्च 2009+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार अनी उल्लाह (जेसी-459302एक्स) 10 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

- नायब सूबेदार दिलीप नाना शेडगे (जेसी-459363पी), 01 मार्च 2008+
- नायब सूबेदार देसाई प्रवीण जयसिंगराव (जेसी-459307डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार पुंडलिक भिकाप पाटील (जेसी-459521वाई), 11 अगस्त 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार जाशव चंद्रकांत रामचंद्र (जेसी-459564एन), 11 अगस्त 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार संजय कोकणे (जेसी-459572एम), 29 मार्च 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अगस्त 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार खोत मंछिंद्र सिराराम (जेसी-459308वाई), 08 दिसम्बर 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार पाटील गणपति रंगराव (जेसी-459588एक्स), 08 अक्टूबर 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार राम लाल पटेल (जेसी-459683के), 21 फरवरी 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार घाडगे सुनिल नामदेव (जेसी-459395एक्स), 16 फरवरी 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार सूर्यवंशी संजय राजाराम (जेसी-459343एफ), 12 दिसम्बर 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार नारायण मारुती पाटील (जेसी-459425के), 08 दिसम्बर 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार गावडे कुंडलिक लक्ष्मण (जेसी-459444पी), 18 दिसम्बर 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार लाड सुधीर रामचंद्र (जेसी-459365ए), 12 मार्च 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार दत्तात्रय तुकाराम पाटील (जेसी-459445एक्स), 10 दिसम्बर 2008+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार नबीसाब नदाफ (जेसी-459341डब्ल्यू), 12 जनवरी 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार थोरात माणिक हरिभाउ (जेसी-459438एफ), 05 जनवरी 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार भोईटे सुधाकर माणिक (जेसी-459369डब्ल्यू), 07 जनवरी 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार ए इस्माईल (जेसी-459370एल), 2 मार्च 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार गारकर बालासाहेब बलवंत (जेसी-459429ए), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार पाटील अरुण बाबासो (जेसी-459459ए), 14 जनवरी 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राजाराम फटु नाईक (जेसी-459546एल), 27 जनवरी 2009+
- +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार शेते संजय दादासाहेब (जेसी-459547एन), 12 जनवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार म्हस्के भगवान दामु (जेसी-459612एच), 01 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खराडे बालु सावलैराम (जेसी-459397एच), 01 फरवरी 2009+

नायब सूबेदार चंद्रकांत तुकाराम जाधव (जेसी-459358के), 09 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगदाले अधिक दगडू (जेसी-459470डब्ल्यू), 08 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कोलेकर शंकर यशवंत (जेसी-459424एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार भोसले अनिल विठल (जेसी-459495एच), 10 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गावडे अर्जुन पुंडलिक (जेसी-459496एल), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार पाटील प्रकाश मारुती (जेसी-459506के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार राम नारायण तिवारी (जेसी-459550एन), 13 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील रमेश दत्तू (जेसी-459590पी), 09 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहम्मद अयुब अली (जेसी-459591एक्स), 09 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दगडे राजाराम रघुराम (जेसी-459592ए), 06 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार स्वामी (जेसी-459595एन), 01 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोरे रोहिदास मारुती (जेसी-459376एम), 20 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुमार झेंडे दत्तात्रय न्हाणु (जेसी-459594एल), 20 मार्च 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सनदी सुलतानसो सिलेमान (जेसी-459623पी), 17 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिंदे रमेश पंढरीनाथ (जेसी-459430पी), 10 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बोगार सर्जेराव कृष्णा (जेसी-459431एक्स), 10 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जे जय प्रकाश (जेसी-459448एल), 06 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भांडे अजयकुमार मारुतीराव (जेसी-459449एन), 10 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुर्वे प्रमोद जयराम (जेसी-459467डब्ल्यू), 06 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सय्यद शहाजहान अम्बीर (जेसी-459513ए), 10 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रावसाहेब विश्वनाथ म्हस्के (जेसी-459536एक्स), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार चौधरी रामदास हरिदास (जेसी-459653एम), 17 अप्रैल 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अशोक कुमार सिंह यादव (जेसी-458419पी), 04 मार्च 2009+

+(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर जी डी के रैंक में

सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-579772वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

सूबेदार जी डी के रैंक में

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-580306डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-580356एफ), जैक राईफल्स, 12 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-580390एफ), जैक राईफल्स, 21 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह, एस एम (जेसी-580319एन), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार समैल खान हिल्लन (जेसी-580223डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-580415एच), जैक राईफल्स, 31 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार हरि अवतार सिंह (जेसी-580250पी), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार परषोतम चन्द (जेसी-580255एन), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार योग राज (जेसी-580300पी), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-580411एम), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार परमजित सिंह (जेसी-580324वाई), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार रच्छपाल सिंह (जेसी-580458एक्स), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार जंग बहादुर (जेसी-580026एच), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार डुन्डि राज थापा (जेसी-580070एम), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार टिका राम छत्तरी (जेसी-580072एक्स), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार अब्दुल हमिद (जेसी-580224एन), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार दीपक कुमार मल (जेसी-580239डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जेसी-580253एच), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार टक बहादुर (जेसी-580257वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-580264पी), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार उधम सिंह (जेसी-580292एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार दया राम (जेसी-580310वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार केवल कृष्ण (जेसी-580326के), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार परमजित सिंह (जेसी-580341वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-580383एल), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुलखन राम (जेसी-580386वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-580393पी), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-580406एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-580427एक्स), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2009

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-498701एक्स), 06 मई 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-499627एन), 03 नवम्बर 2008

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2008)

नायब सूबेदार बलबिंदर सिंह (जेसी-499649एम), 16 मई 2009
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009)

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जेसी-499693डब्ल्यू), 05 मई 2009
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-499677वाई), 04 मई 2009
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार पपिन्दर सिंह (जेसी-499679के), 13 मई 2009
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009)

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार एम वासुदेवन (जेसी-438483ए), 17 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार टी पलनी (जेसी-438647एल), 01 अक्टूबर 2007

सूबेदार पौलसन पी सी (जेसी-438282एफ), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार अन्ते के के (जेसी-210955एल), 26 नवम्बर 2007 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार एस सुन्दर (जेसी-438220एफ), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार डोमिनिक के थॉमस (जेसी-438095एच), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार पराशराम नारायण कुकाडलकर (जेसी-438165डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार आर सेन्दुर पांडीयन (जेसी-438457वाई), 03 दिसम्बर 2007 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार मन्नार स्वामी डी (जेसी-438318पी), 06 फरवरी 2008 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार गुडुलाल उस्मान वालिकर (जेसी-438269एक्स), 01 फरवरी 2008

सूबेदार एन दुर्ई (जेसी-548224ए), 01 मार्च 2008

सूबेदार पी चन्द्रन (जेसी-438564ए), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार एम मोहन (जेसी-438161ए), 01 मई 2008

सूबेदार सेतूमाधवन पी (जेसी-438335पी), 01 जून 2008

सूबेदार राजन पी वी (जेसी-438390एल), 01 जून 2008

सूबेदार बालाकृष्णन अरीप्पा (जेसी-438341एच), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार बेट्टा गौडा (जेसी-438654एफ), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार राजुकुरीयन के (जेसी-498651एक्स), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार जेराल्ड के ए (जेसी-438198एफ), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार जोन पी आई (जेसी-438595ए), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार ए जोसफ मैकल राज (जेसी-438676ए), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार राजन पी के (जेसी-438556एफ), 14 नवम्बर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार विजयन एच (जेसी-438675एक्स), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार डी पोन्नया (जेसी-438755पी), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार यादवा मुर्ती जी (जेसी-438779वाई), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार श्रीशैला शिलीनवर (जेसी-438758एच), 01 जनवरी 2009

सूबेदार यादवा सी के (जेसी-438992एन), 01 फरवरी 2009

सूबेदार सुबय्या ए पी (जेसी-438424एन), 12 मार्च 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार मनियन के (जेसी-438583एल), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार शशि आर (जेसी-438655के), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार दुप्पला अप्पा राव (जेसी-438708एक्स), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार बाबु एम (जेसी-438813एन), 10 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार वाई राजशेखरा रेड्डी (जेसी-438936ए), 02 जून 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार (लिपिक) जोर्ज ब्रिट्टो (जेसी-438751वाई), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार (लिपिक) पी कुमार (जेसी-438794एन), 02 अप्रैल 2008 *

*(सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार (लिपिक) हरिन्द्रन कलुरीवत्तथ (जेसी-438844एन), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार (लिपिक) गणेशन एस (जेसी-438966एक्स), 01 अक्टूबर 2008

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-499631डब्ल्यू), 04 फरवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009)

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-499633एफ), 29 अप्रैल 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मार्च 2009)

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-499673एच), 29 अप्रैल 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2009)

नायब सूबेदार रछपाल सिंह (जेसी-499500एल), 12 मई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-499628डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-499650एफ), 22 मई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499651के), 30 मई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार अमृत सिंह (जेसी-499668एक्स), 10 जून 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार कमलजीत सिंह (जेसी-499383एल), 20 मई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009)

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-499692एन), 10 मई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009)

नायब सूबेदार रुपिन्दर सिंह (जेसी-499691एल), 05 जून 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009)

ग्रेनेडियर्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रशीक अली (जेसी-450147ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-450212पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार शीश राम (जेसी-450215वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार जीव राज सिंह (जेसी-450230वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-450241के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार कर्ण सिंह (जेसी-450254एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-450269के), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार भवर सिंह दुडि (जेसी-450270वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-450291एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-450294एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-450321पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार मकशुद अली खान (जेसी-450148एच), 06 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार संदीप कुमार (जेसी-450193पी), 11 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सुआ कट्ट (जेसी-450236वाई), 19 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार रामबीर (जेसी-450121एल), 23 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार चंदन सिंह (जेसी-450874एल), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार रामा शंकर सिंह (जेसी-450912डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार खत्री अजीत कुमार (जेसी-449951पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार देव कर्ण सिंह (जेसी-449952एक्स), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सुरेश कुमार सिंह (जेसी-449984ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार समशेर सिंह (जेसी-450075एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जाला धर्मेन्द्र सिंह (जेसी-450203एन), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार शोकत खान (जेसी-450078पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार रामेश्वर लाल (जेसी-450131पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार अजीत लाल (जेसी-450165एच), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सरवन सिंह पटयाल (जेसी-450203एन), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-450296वाई), 01 नवम्बर 2008
 नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-449906एच), 13 नवम्बर 2008
 नायब सूबेदार मोती सिंह (जेसी-450024एम), 13 नवम्बर 2008
 नायब सूबेदार युवराज सिंह (जेसी-450095पी), 01 दिसम्बर 2008
 नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-450204डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
 नायब सूबेदार प्रेम पाल (जेसी-450223एफ), 02 दिसम्बर 2008
 नायब सूबेदार राजेन्द्र पाल (जेसी-450324पी), 01 दिसम्बर 2008
 नायब सूबेदार विद्या सागर शर्मा (जेसी-450003एक्स), 17 दिसम्बर 2008
 नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-449832वाई), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार फारूख अली (जेसी-449875एन), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार रनवीर सिंह (जेसी-450306एम), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार ब्रज राज (जेसी-450160के), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार जोगिन्द्र कुमार (जेसी-450263के), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार अयूब खान (जेसी-449897के), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-449980के), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-449983एक्स), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार जगत पाल सिंह (जेसी-450001एम), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी-450032एम), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार वगतावत सिंह (जेसी-450122एल), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार चौधरी रमेश भाई रामजी भाई (जेसी-450273एम), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-449968एच), 27 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार सोराज मीना (जेसी-450020एक्स), 01 फरवरी 2009
 नायब सूबेदार जैन दास (जेसी-450130एम), 01 फरवरी 2009
 नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-450187एफ), 06 फरवरी 2009
 नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-450163एक्स), 01 मार्च 2009
 नायब सूबेदार शोम दत्त (जेसी-450246एच), 01 मार्च 2009
 नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-450259ए), 01 मार्च 2009
 नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-450280एच), 01 मार्च 2009
 नायब सूबेदार प्रमार शावजी भगवान जी (जेसी-450310पी), 01 मार्च 2009
 नायब सूबेदार जाकिर हुसैन (जेसी-449934पी), 09 मार्च 2009
 नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-450074वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार हबीब अहमद (जेसी-450124वाई), 01 अप्रैल 2009
 नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-450074वाई), 01 अप्रैल 2009
 नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-450231ए), 01 अप्रैल 2009
 नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-450243पी), 01 अप्रैल 2009
 नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल (जेसी-450015एक्स), 01 मई 2009
 सूबेदार (लिपिक) के रैंक में
 नायब सूबेदार क्लर्क ओम प्रकाश (जेसी-450079एक्स), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क रमेश चन्द सिंह (जेसी-450081पी), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क सुरेश कुमार (जेसी-450082एक्स), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क कर्ण सिंह (जेसी-450082एक्स), 01 जनवरी 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क अफसर अली खान (जेसी-450084एच), 01 फरवरी 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क सुरेश चन्द रोट (जेसी-450097ए), 01 फरवरी 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क अरुण कुमार तिवारी (जेसी-450134एच), 01 मार्च 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क प्रदीप कुमार पाडे (जेसी-450134एल), 01 अप्रैल 2009
 नायब सूबेदार क्लर्क राधा किशन (जेसी-450134एन), 01 जून 2009
 दि राजपूत रेजिमेंट
 सूबेदार के रूप में
 सूबेदार नान्हू लाल गूजर (जेसी-479679 एच), 19 अक्टूबर 2007/ 01 जुलाई 2007
 सूबेदार समय सिंह गूजर (जेसी-479806 एम), 03 सितम्बर 2008/ 01 अगस्त 2008
 सूबेदार शिव राम गूजर (जेसी-479791पी), 01 सितम्बर 2008
 सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479870 के), 22 नवम्बर 2008/ 01 नवम्बर 2008
 सूबेदार विरेन्द्र सिंह एसएम (जेसी-479708 एम), 01 नवम्बर 2008
 सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-479802 डब्ल्यू), 17 मार्च 2009/ 01 फरवरी 2009
 सूबेदार शमीर दास (जेसी-479877 एन), 02 फरवरी 2009/ 01 फरवरी 2009

सूबेदार राम चरन सिंह (जेसी-479812 ए), 01 जून 2009/01 अप्रैल 2009

सूबेदार लक्ष्मन सिंह कुशवाहा (जेसी-479790 एल), 30 मई 2009/01 मार्च 2009

सूबेदार मुन्ना लाल (जेसी-479918 एम), 28 मई 2009/01 अप्रैल 2009

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार बन्त सिंह (जेसी-509158 एम), 20 जुलाई 2008

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-509245ए), 21 जुलाई 2008

नायब सूबेदार ओमप्रकाश (जेसी-509313एच), 21 जुलाई 2008

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-509119एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जेसी-509230एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-509139एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जेसी-509409एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-509306एम), 08 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-509335एफ), 09 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-509375एच), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-509388ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार धरम सिंह चौहान (जेसी-509390एक्स), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-509407ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार पिथी सिंह (जेसी-509191के), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार देवी दिता (जेसी-509484पी), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-509459डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-509279एन), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-509280एच), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार हरदीप सिंह (जेसी-509170एन), 16 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार रविंदर सिंह (जेसी-509181ए), 16 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-509463वाई), 18 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जेसी-509424ए), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-509442एच), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार सुबा सिंह (जेसी-509391ए), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-509414डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-509443एल), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार चमन सिंह (जेसी-509472ए), 13 जनवरी 2009

नायब सूबेदार पिथीपाल सिंह (जेसी-509450एफ), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-509410ए), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार संतोख सिंह (जेसी-509182एच), 08 फरवरी 2009

नायब सूबेदार सुरिंद्रपाल सिंह (जेसी-509451के), 15 फरवरी 2009

नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जेसी-509436पी), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार सेवक सिंह (जेसी-509192एम), 01 अप्रैल 2009

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार (लिपिक) यश पाल शर्मा (जेसी-593110एफ), 28 फरवरी 2009

(सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) राकेश कुमार भारद्वाज (जेसी-593131एक्स), 03 अप्रैल 2009

(सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 अप्रैल 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) गिरिश चंद्रा भदोला (जेसी-593140वाई), 08 मई 2009

(सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 मई 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

मद्रास रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) दाल चंद्रा (जेसी-439054एल), 13 फरवरी 2008*

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) मोहन प्रसाद (जेसी-439411एच), 01 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) अनिल कुमार (जेसी-439413एन), 11 फरवरी 2008*

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) सुधाकरन पी (जेसी-439477वाई), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) विजयन पिलै (जेसी-439488एल), 06 अप्रैल 2008*

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) वी आर बारति श्रीनिवासन (जेसी-439489एन); 05 मई 2008 *

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) साथिशा पी (जेसी-439490एच), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) महादेव नेरलागी (जेसी-439491एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) एन थंकाराज (जेसी-439507एल), 01 मई 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) एस मारुथामुथु (जेसी-439517पी), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) वुदैवीर सिंह (जेसी-439560डब्ल्यू), 30 जुलाई 2008 *

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) कारथीकेयन आर (जेसी-439561वाई), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) सुभाश कुमार (जेसी-439562एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) वुज्जवल बरन बैदया (जेसी-439600एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) अप्पू पी (जेसी-439601पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) वेद प्रकाश (जेसी-439602एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) धरमबीर सिंह (जेसी-439610डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) कमल सिंह (जेसी-439633एक्स), 01 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) उन्नीक्रिशन पी के (जेसी-439650एक्स), 12 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

लद्दाख स्काऊट्स

सूबेदार (जीडी) के पद पर

नायब सूबेदार स्कर्मा सम्स्तन (जेसी-588347पी), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार टशि स्तोब्दन (जेसी-588299ए), 02 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008 *

नायब सूबेदार टशि अंग्चोक (जेसी-588284एक्स), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार पदमा आंगदुस (जेसी-588285ए), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार जाफर अली (जेसी-588371एल), 17 नवम्बर 2008/ 01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार छेतन गिअल्चन (जेसी-588373डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार छेरिंग आंग्चोक (जेसी-588366ए), 03 नवम्बर 2008/ 01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार छेवांग आंगदुस (जेसी-588287एल), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सोनम डोजे (जेसी-588315एम), 10 फरवरी 2009/ 01 जनवरी 2009 *

नायब सूबेदार फुंचोक नग्मिअल (जेसी-588394एम), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार नोर्बु सोनम (जेसी-588295के), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार स्कर्मा ईशे (जेसी-588374वाई), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार छेरिंग स्तोब्दन, एस एम (जेसी-588275एफ), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार छेरिंग डोजे (जेसी-588377एम), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार डोजे वंगिअल (जेसी-588396एक्स), 13 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 *

नायब सूबेदार छेवांग डोजे (जेसी-588406डब्ल्यू), 05 फरवरी 2009/ 01 फरवरी 2009 *

नायब सूबेदार टशि अंग्चोक (जेसी-588413एम), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार अंग्चोक रफतन (जेसी-588387डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार नावंग नग्मिअल (जेसी-588319एच), 02 मार्च 2009/ 01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार स्कर्मा चीबा छोजिन (जेसी-588321ए), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

सूबेदार कर्लक (जीडी) के पद पर

नायब सूबेदार महोमद सुल्तान वानि (जेसी-588358एफ), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जीडी) के पद पर

हवलदार सहरप फुंचोक (सं. 9923606ए अब जेसी-588481ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार स्तम्बा जम्यंग (सं. 9923368वाई अब जेसी-588482एच), 01 जुलाई 2008

- हवलदार ईशय रिजिन (सं. 9923584एम अब जेसी-588483एल),
01 जुलाई 2008
- हवलदार टशि फुंचोक (सं. 9923620एम अब जेसी-588484एन),
10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *
- हवलदार आंगचोक डोजे (सं. 9923652पी अब जेसी-588485डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2008
- हवलदार छेरिंग आंगदुस (सं. 9923211वाई अब जेसी-588486वाई),
01 सितम्बर 2008
- हवलदार छेरिंग सम्फेल (सं. 9923675डब्ल्यू अब जेसी-588488के),
02 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *
- हवलदार फुंचोक वंदुस (सं. 9923425पी अब जेसी-588489एम),
03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *
- हवलदार नावंग स्तंजिन (सं. 9923662वाई अब जेसी-588490एफ),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार छेवांग नोबू (सं. 9923784एच अब जेसी-588491के),
01 जनवरी 2009/01 नवम्बर 2008 *
- हवलदार सेतन नमिअल (सं. 9923884एन अब जेसी-588492एम),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार वआंगचन टटक (सं. 9923669एच अब जेसी-588493पी),
12 दिसम्बर 2008/12 नवम्बर 2008 *
- हवलदार छेवांग डोजे (सं. 9923661डब्ल्यू अब जेसी-588494एक्स),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार रिंचेन डोजे (सं. 9923841वाई अब जेसी-588495ए),
01 जनवरी 2009/01 दिसम्बर 2008 *
- हवलदार छेरिंग गिआचो (सं. 9923050एफ अब जेसी-588497एल),
03 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- हवलदार रिजिन डोजे (सं. 9923273वाई अब जेसी-588498एन),
03 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- हवलदार छेवांग डोजे (सं. 9923690एल अब जेसी-588499डब्ल्यू),
01 जनवरी 2009
- हवलदार टशि स्तंजिन (सं. 9923696एम अब जेसी-588500ए),
01 जनवरी 2009
- हवलदार लवांग छेरिंग (सं. 9923877एक्स अब जेसी-588501एच),
01 जनवरी 2009
- हवलदार टशि मुरुप (सं. 9923729एम अब जेसी-588504डब्ल्यू),
02 मार्च 2009
- हवलदार छेवांग डोजे (सं. 9923653एक्स अब जेसी-588505वाई),
02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *
- हवलदार छेरिंग स्तंजिन (सं. 9923910के अब जेसी-588506एफ),
02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *
- हवलदार छेरिंग आंगदुस (सं. 9923727एफ अब जेसी-588507के),
01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार कर्लक (जीडी) के पद पर
- हवलदार कर्लक रजिंदर सिंह राजा (सं. 15355629डब्ल्यू अब जेसी-588480एक्स), 01 जुलाई 2008
- हवलदार कर्लक समशेर सिंह चहल (सं. 9923457एक्स अब जेसी-588487एफ), 01 अक्टूबर 2008
- हवलदार कर्लक फुमन सिंह (सं. 9923458ए अब जेसी-588496एच),
01 जनवरी 2009
- वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी।
- पंजाब रेजिमेन्ट
- सूबेदार के रैंक में
- नायब सूबेदार बलदेव राज (जेसी-429937एफ), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार जगीर सिंह (जेसी-429794एम), 24 मार्च 2009
- सूबेदार लिपिक के रैंक में
- नायब सूबेदार लिपिक रविन्दर सिंह ठाकुर (जेसी-429949डब्ल्यू),
01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार लिपिक नच्छतर सिंह (जेसी-430021वाई), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार लिपिक राम करण (जेसी-430022एफ), 01 अप्रैल 2009
- नायब सूबेदार लिपिक गोपाल सिंह (जेसी-430023के), 01 अप्रैल 2009
- सूबेदार के रैंक में
- नायब सूबेदार क्रिशन चन्द (जेसी-430089ए), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-429764पी), 01 फरवरी 2009
- नायब सूबेदार जतेन्दर सिंह (जेसी-429789एफ), 01 फरवरी 2009
- सूबेदार लिपिक के रैंक में
- नायब सूबेदार लिपिक येनने चिन्ना बाबू (जेसी-429992एक्स),
01 फरवरी 2009
- नायब सूबेदार लिपिक राजेश कुमार (जेसी-429993ए), 01 फरवरी 2009
- सूबेदार के रैंक में
- नायब सूबेदार बचन सिंह (जेसी-430246एफ), 21 अप्रैल 2009
- (सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अनोख सिंह (जेसी-430039पी), 14 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-430077एल), 21 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रति राम (जेसी-430085के), 17 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुभाष चंद शर्मा (जेसी-430143एच), 15 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हेम सिंह (जेसी-430272एच), 21 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-430273एल), 21 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-430155एक्स), 18 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रमेश चंद अगन (जेसी-430119एम), 18 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देश राज सिंह (जेसी-430060एक्स), 29 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लाल चंद (जेसी-430170एम), 20 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-430025पी), 22 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बंसी धर काजला (जेसी-430086एम), 16 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-430126एच), 29 अप्रैल 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-430072एम), 01 मई 2009

नायब सूबेदार तरलोक चन्द (जेसी-430133वाई), 01 मई 2009

9 जी आर

सूबेदार के रैंक में

रैंक, नाम, जेसी नं. तथा पदोन्नति की तिथि

नायब सूबेदार राम बहादुर भण्डारी (जेसी-629740पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार अशोक बहादुर खत्री छेत्री (जेसी-629741एक्स), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार आर टी गोपाल झा (जेसी-629215वाई), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार हीरा बहादुर छेत्री (जेसी-629723पी), 01 जनवरी 2009/10 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार किशन बहादुर शाही (जेसी-629746डब्ल्यू), 17 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

नायब सूबेदार खिम बहादुर ठकुरी (जेसी-629805एक्स), 03 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार टेक बहादुर खडका (जेसी-629757एच), 01 अप्रैल 2009

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

रैंक, नाम, जेसी नं. तथा पदोन्नति की तिथि

नायब सूबेदार लिपिक मोहम्मद अहसान (जेसी-607542एच), 11 मई 2009/01 मार्च 2008 *

नायब सूबेदार प्रेम प्रसाद गुरुंग (जेसी-607683वाई), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार इन्द्रा बहादुर थापा (जेसी-607696डब्ल्यू), 01 मई 2008

नायब सूबेदार अमर बहादुर थापा (जेसी-607690पी), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

जाट रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-489583एन), 01 अगस्त 2007

- नायब सूबेदार हरजीत (जेसी-489624एम), 01 सितम्बर 2007
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-489633एन), 19 सितम्बर 2007
- नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-489423एन), 08 दिसम्बर 2007 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)
- नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जेसी-489452एच), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार ओमवीर सिंह (जेसी-489521एन), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार विजय पाल सिंह (जेसी-489651डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-489570डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार सत्यपाल (जेसी-489600एच), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-489601एल), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार चंदन सिंह (जेसी-489696डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार महा सिंह डागर (जेसी-489682डब्ल्यू), 30 जनवरी 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)
- नायब सूबेदार रोहिताश कुमार जाखड़ (जेसी-489703एफ), 04 नवम्बर 2007 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-489711ए), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-489712एच), 07 अप्रैल 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह (जेसी-489725ए), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार अमीर सिंह (जेसी-489726एच), 05 दिसम्बर 2007 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार पदम सिंह (जेसी-489688एक्स), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-489717एफ), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार प्यारे लाल (जेसी-489727एल), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार होशियार सिंह पचार (जेसी-489747वाई), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार सत्यबीर (जेसी-489793एन), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह राठी, एसएम (जेसी-489752के), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार रामेश्वर लाल जाट (जेसी-489804पी), 05 जून 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)
- नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-489805एक्स), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार रोहिताश (जेसी-489810एच), 01 नवम्बर 2007
- नायब सूबेदार संजीव कुमार (जेसी-489835पी), 01 जून 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार गिरधारी राम (जेसी-489699के), 19 जनवरी 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-489704के), 14 दिसम्बर 2007 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-489733वाई), 03 दिसम्बर 2007 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-489806ए), 31 मार्च 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम निवास सोलंकी (जेसी-489807एच), 01 दिसम्बर 2007
- नायब सूबेदार परतू राम (जेसी-489808एल), 01 दिसम्बर 2007
- नायब सूबेदार सबरजीत सिंह (जेसी-489787ए), 01 दिसम्बर 2007
- नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-489850के), 01 जून 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-489862वाई), 27 जून 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-489863एफ), 08 जून 2008 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार दलीप सिंह जाट (जेसी-489864के), 01 जून 2008 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

सं० 33, दिनांक 16 दिसम्बर 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार कुमार वी (जेसी-269521एच), 11 फरवरी 2009/ 20 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार रास बिहारी पाण्डेय (जेसी-268034डब्ल्यू), 15 जून 2009/01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-268004वाई), 15 मई 2009/ 05 फरवरी 2009 *

नायब सूबेदार कुशहाल मनी (जेसी-267981एल), 08 मार्च 2009/ 22 फरवरी 2009 *

नायब सूबेदार सुखराज सिंह (जेसी-268556एम), 18 फरवरी 2009/ 28 जनवरी 2009 *

नायब सूबेदार जगनाथन जी (जेसी-269150एल), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार के सेल्वारज (जेसी-269365के), 29 जनवरी 2009/ 01 जनवरी 2009 *

नायब सूबेदार सम फल (जेसी-269868पी), 01 अप्रैल 2009/ 01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार हरमल सिंह (जेसी-268655पी), 27 मार्च 2009/ 05 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार संजोय डे (जेसी-267450एन), 15 जून 2009/20 जनवरी 2009 *

नायब सूबेदार गुरुगुबेल्ले असरी नायडू (जेसी-270136एल), 18 मई 2009/02 फरवरी 2009 *

नायब सूबेदार बैजनाथ सिंह (जेसी-270150एक्स), 16 मई 2009/ 27 फरवरी 2009 *

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-270086एल), 25 नवम्बर 2008/ 01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-269726एक्स), 23 दिसम्बर 2008/ 01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार दविड (जेसी-270163पी), 10 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार जनार्दन प्रसाद मिश्रा (जेसी-267960पी), 30 जून 2009/01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार गुरुदीप सिंह (जेसी-269031पी), 27 अप्रैल 2009/ 01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-268949एच), 25 सितम्बर 2008/05 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार राधा कृष्णा पिल्ले पी डी (जेसी-268952एच), 14 जनवरी 2009/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-268971एन), 24 फरवरी 2009/31 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-267570एम), 21 अक्टूबर 2008/ 01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार काश्मीर सिंह (जेसी-269830एल), 11 अप्रैल 2009/ 01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार राम गिलास गुर्जर (जेसी-270238एफ), 15 दिसम्बर 2008/18 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार गोपाल गणेश भेकने (जेसी-269832डब्ल्यू), 19 मई 2009/01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार धर्म चन्द (जेसी-264135एम), 08 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार श्रीनिवास मोझुपदार (जेसी-267669एच), 15 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-262675एम), 08 जुलाई 2009/ 01 अप्रैल 2005 *

नायब सूबेदार मालीखन सिंह (जेसी-268485डब्ल्यू), 29 जून 2009/ 05 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-264287एन), 08 जुलाई 2009/ 01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार धर्मपाल (जेसी-265724पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-266006एल), 16 जून 2009/ 17 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र यादव (जेसी-268950एक्स), 17 जून 2009/ 18 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार प्रसन्नन के (जेसी-266302डब्ल्यू), 20 जुलाई 2009/ 01 मई 2009 *

नायब सूबेदार गौतम मिश्रा (जेसी-270165ए), 26 जून 2009/26 मई 2009 *

नायब सूबेदार हरदीप सिंह (जेसी-264174एल), 29 जून 2009/ 01 जून 2009 *

नायब सूबेदार सुवीन्दर सिंह (जेसी-270393एच), 03 जुलाई 2009/ 01 जून 2009 *

नायब सूबेदार राम फल (जेसी-270297एन), 16 जून 2009/01 जून 2009 *

नायब सूबेदार गुरुचरण सिंह (जेसी-269693एक्स), 26 जुलाई 2009/07 जून 2009 *

नायब सूबेदार कोलासे गुन्डीराम लक्ष्मण (जेसी-267477एल),
17 जुलाई 2009/01 जून 2009 *

नायब सूबेदार हलास्वर प्रसाद सिंह (जेसी-268191एच), 23 जून
2009/23 जून 2009 *

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-268056पी), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार विनय कुमार राय (जेसी-269095ए), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार गोपाल दास (जेसी-262184डब्ल्यू), 15 जून 2009/
01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-269682एल), 13 जून 2009/
21 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार बारमेश्वर सिंह (जेसी-268601एन), 30 अप्रैल 2009/
01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह मत्था (जेसी-269248वाई), 02 अप्रैल
2009/01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार काटे सुरेश ईश्वरा (जेसी-269754के), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार मनी नारायण प्रधान (जेसी-269434पी), 11 मई
2009/01 मई 2009 *

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-269205के), 12 मई 2009/
03 मई 2009 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-268386एन), 19 जुलाई 2009/
01 जून 2009 *

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-268657ए), 08 जुलाई 2009/
01 जून 2009 *

नायब सूबेदार सोमन बी (जेसी-268877के), 21 जुलाई 2009/
01 जून 2009 *

नायब सूबेदार बीरपाल (जेसी-269087एफ), 06 जून 2009/
01 जून 2009 *

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-269775ए), 01 जून 2009

नायब सूबेदार रामवीर सिंह (जेसी-270351डब्ल्यू), 01 जून 2009

नायब सूबेदार अमरनाथ सिंह यादव (जेसी-270355एम), 01 जून
2009

नायब सूबेदार राम राठी पटेल (जेसी-267944एक्स), 20 जून 2009

नायब सूबेदार सागर सिंह (जेसी-268126एच), 21 जून 2009/
01 मार्च 2009

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार एम ईयप्पन (सं. 14267383के अब जेसी-378820एक्स),
01 अप्रैल 2008

हवलदार अशोका कुमार आर (सं. 15352752के अब जेसी-378040एम),
01 अप्रैल 2008

हवलदार बसंता कुमार दास (सं. 15355880ए अब
जेसी-378372डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

हवलदार शिंदे जनार्दन बी आर (सं. 15356866एम अब
जेसी-378480ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार धन सिंह (सं. 14255477पी अब जेसी-378481एच),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार सवाई सिंह (सं. 14267680एक्स अब जेसी-378483एन),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुरेन्द्र पाल (सं. 15352647एन अब जेसी-378484डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार जया कुमार ए (सं. 15353580एम अब जेसी-378485वाई),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार भास्कर परीदा (सं. 15358871डब्ल्यू अब जेसी-378552वाई),
01 नवम्बर 2008

हवलदार राम निवास (सं. 15352397एक्स अब जेसी-378553एफ),
01 नवम्बर 2008

हवलदार एम पी के सिंघा (सं. 14260387एक्स अब जेसी-378554के),
01 नवम्बर 2008

हवलदार बीरपक्या प्रधान (सं. 15356582एच अब जेसी-378555एम),
01 नवम्बर 2008

हवलदार शेर सिंह (सं. 15358017के अब जेसी-378556पी),
01 नवम्बर 2008

हवलदार रघुनाथ साहू (सं. 15353464के अब जेसी-378557एक्स),
01 नवम्बर 2008

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 15356489एफ अब जेसी-378558ए),
01 नवम्बर 2008

हवलदार राजपूत प्रकाश एल एस (सं. 15357623एन अब
जेसी-378559ए), 01 नवम्बर 2008

हवलदार सनत कुमार पाल (सं. 15353301डब्ल्यू अब
जेसी-378591एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार रविन्द्रन नायर ई ए (सं. 15357675के अब जेसी-378592ए),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार आर कुमार लखोत्रा (सं. 15358239वाई अब
जेसी-378593एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार परताप सिंह (सं. 15358459एच अब जेसी-378700वाई),
01 जनवरी 2009

हवलदार पाटिल सुरेश सी (सं. 15350792एम अब
जेसी-378701एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार विनोद कुमार शर्मा (सं. 15354649एक्स अब जेसी-378702के), 01 जनवरी 2009

हवलदार रमेश चन्द्रा (सं. 15352434ए अब जेसी-378703एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार मोहन कुमार पी वी (सं. 15353827एच अब जेसी-378704पी), 01 जनवरी 2009

हवलदार शुभ करन सिंह (सं. 15358166एक्स अब जेसी-378705एक्स), 01 जनवरी 2009

हवलदार उमेश चन्द्र वर्मा (सं. 15356985एच अब जेसी-378706ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार जीयाउल इस्लाम मजूमदार (सं. 15354475एच अब जेसी-378707एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार आशा राम (सं. 15358738एन अब जेसी-378742एल), 01 फरवरी 2009

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 15350686एन अब जेसी-378743एम), 02 फरवरी 2009

हवलदार उज्जवल कुमार पाल (सं. 15355256एन अब जेसी-378744 डब्ल्यू), 02 फरवरी 2009

हवलदार साजन जार्ज (सं. 15357877एल अब जेसी-378745वाई), 19 फरवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 14256023एन अब जेसी-378746एफ), 02 फरवरी 2009

हवलदार सुरेश चंद यादव (सं. 15360082एच अब जेसी-378747के), 02 फरवरी 2009

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 15357687वाई अब जेसी-378776वाई), 27 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

हवलदार लौहार सिंह (सं. 15352304एक्स अब जेसी-378777पी), 01 मार्च 2009

हवलदार गम्भीर सिंह बसेरा (सं. 15359983एच अब जेसी-378778के), 01 मार्च 2009

हवलदार हरवीर सिंह (सं. 15360190एम अब जेसी-378779एम), 01 मार्च 2009

हवलदार राजेन्द्रन वी (सं. 14268769डब्ल्यू अब जेसी-378780एफ), 01 मार्च 2009

हवलदार सहाबुद्दीन अन्सारी (सं. 15354858पी अब जेसी-378781के), 01 मार्च 2009

हवलदार पी के सामंतारे (सं. 15360878वाई अब जेसी-378782एम), 01 मार्च 2009

हवलदार प्रदीप एस (सं. 15360981के अब जेसी-378783पी), 01 मार्च 2009

हवलदार सुरेंद्र सिंह (सं. 14259196डब्ल्यू अब जेसी-378784एक्स), 01 मार्च 2009

हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 15359165एफ अब जेसी-378825डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एन आर वी रमना रेड्डी (सं. 15364131एक्स अब जेसी-378826वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार नवल किशोर (सं. 15358696एम अब जेसी-378827एफ), 01 अप्रैल 2009

हवलदार मोनी कुट्टन के (सं. 15350419एम अब जेसी-378828के), 01 अप्रैल 2009

हवलदार सुनील कुमार के (सं. 15353567एच अब जेसी-378829एम), 01 अप्रैल 2009

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 15357970एम अब जेसी-378830एफ), 08 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एम डी तबीबोर रहमान (सं. 153590229एफ अब जेसी-378831के), 01 अप्रैल 2009

हवलदार देव प्रसाद यादव (सं. 15364139के अब जेसी-378832एम), 17 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सदार सिंह बिष्ट (सं. 14269228एफ अब जेसी-378833पी), 01 अप्रैल 2009

हवलदार तेक सिंह (सं. 15360683एन अब जेसी-378834एक्स), 04 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार वाई पी सिंह रावत (सं. 15358103पी अब जेसी-378835ए), 01 अप्रैल 2009

हवलदार सुख राम (सं. 15363257एल अब जेसी-378836एच), 01 अप्रैल 2009

हवलदार महेश चन्द (सं. 15364282डब्ल्यू अब जेसी-378916ए), 01 मई 2009

हवलदार विजय कुमार तिवारी (सं. 15364332डब्ल्यू अब जेसी-378935एल), 01 जून 2009

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 15356813एन अब जेसी-378937डब्ल्यू),
01 जून 2009

हवलदार के एस रविशंकर (सं. 15356327डब्ल्यू अब जेसी-378937डब्ल्यू), 19 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार वी कथीरावन (सं. 15353122डब्ल्यू अब जेसी-378938वाई),
01 जून 2009

हवलदार कौशल कुमार सिंह (सं. 15364602ए अब जेसी-378939एफ), 01 जून 2009

हवलदार जनार्दन गिरी (सं. 15357892ए अब जेसी-378940डब्ल्यू),
01 जून 2009

नायब सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

हवलदार राम निवास (सं. 14267428वाई अब जेसी-377716एक्स),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार राधे श्याम (सं. 15350113के अब जेसी-378817एक्स),
01 फरवरी 2008

हवलदार साबू के एम (सं. 15350265एल अब जेसी-378818ए),
01 फरवरी 2008

हवलदार जादव चन्द्र साहू (सं. 15353455एच अब जेसी-378567एफ),
08 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शेषमनी पाण्डे (सं. 15352577ए अब जेसी-378594एल),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार चन्द्र भान सिंह (सं. 15352813डब्ल्यू अब जेसी-378595एन),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 15352652वाई अब जेसी-378596डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार चवन किशन जोती (सं. 15353133एच अब जेसी-378597वाई), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार ताजबर सिंह बिष्ट (सं. 15353607वाई अब जेसी-378708एल), 14 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मुकेश चन्द्र तोमर (सं. 15352871ए अब जेसी-378709एन),
01 जनवरी 2009

हवलदार जाधन दिलिप के राव (सं. 15350778ए अब जेसी-378715एफ),
02 जनवरी 2009

हवलदार भक्ता बन्धु बेहरा (सं. 15353490एन अब जेसी-378716के),
02 जनवरी 2009

हवलदार स्वर्ण सिंह सोरोहा (सं. 14266190एक्स अब जेसी-378717एम), 02 जनवरी 2009

हवलदार गोविंद सिंह सामंत (सं. 15350222डब्ल्यू अब जेसी-378718पी), 02 जनवरी 2009

हवलदार दान सिंह (सं. 15350250एच अब जेसी-378719एक्स),
02 जनवरी 2009

हवलदार बानी सिंह (सं. 15351934एल अब जेसी-378748एम),
01 फरवरी 2009

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 15352166एफ अब जेसी-378749पी),
01 फरवरी 2009

हवलदार केशव लाल (सं. 15353165एल अब जेसी-378750के),
01 फरवरी 2009

हवलदार अमर सिंह (सं. 15353159एक्स अब जेसी-378751एम),
01 फरवरी 2009

हवलदार धीरज सिंह (सं. 15352896एम अब जेसी-378785ए),
01 मार्च 2009

हवलदार शिव दयाल सिंह (सं. 15353183एन अब जेसी-378786एच),
01 मार्च 2009

हवलदार राजबीर (सं. 15353180ए अब जेसी-378787एल), 01 मार्च 2009

हवलदार लाल चन्द (सं. 15353179एल अब जेसी-378788एन),
01 मार्च 2009

हवलदार सुभाष प्रताप सिंह (सं. 15353197एन अब जेसी-378789डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

हवलदार रकम सिंह (सं. 15353262एच अब जेसी-378790एल),
01 मार्च 2009

हवलदार लक्ष्मन सिंह (सं. 15352910एन अब जेसी-378837एन),
01 अप्रैल 2009

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 15353269एम अब जेसी-378838एन),
01 अप्रैल 2009

हवलदार अतेन्द्रा कुमार (सं. 15353290पी अब जेसी-378839डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2009

हवलदार विनोद कुमार (सं. 15353342ए अब जेसी-378840एल),
01 अप्रैल 2009

हवलदार जगदीश राज (सं. 15353090वाई अब जेसी-378841एन),
01 अप्रैल 2009

हवलदार उदय कुमार एम (सं. 14265570के अब जेसी-378842डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2009

हवलदार सनत कुमार विश्वाल (सं. 15353638वाई अब जेसी-378843वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार शंभु नाथ झा (सं. 15350360एक्स अब जेसी-378844एफ),
06 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद कुमार राय (सं. 15353410एच अब जेसी-378845के),
01 अप्रैल 2009

हवलदार बीना कुमार सिंघा (सं. 14268415एन अब जेसी-378846एम),
01 अप्रैल 2009

हवलदार शाल्वा राज टी एस (सं. 15350260एम अब जेसी-378847पी),
01 अप्रैल 2009

हवलदार परशुराम राम (सं. 15353959डब्ल्यू अब जेसी-378848एक्स),
01 अप्रैल 2009

हवलदार भुवन चन्द्र (सं. 15354072एच अब जेसी-378849ए),
01 अप्रैल 2009

हवलदार दान सिंह बोहरा (सं. 15354074एन अब जेसी-378850पी),
01 अप्रैल 2009

हवलदार गनपत सिंह रावत (सं. 15354058डब्ल्यू अब जेसी-378917एच),
01 मई 2009

हवलदार शेर सिंह यादव (सं. 15354449एफ अब जेसी-378918एल),
01 मई 2009

हवलदार रमेश चन्द (सं. 15354119एच अब जेसी-378919एन),
01 मई 2009

हवलदार अबधेश पी डी पटेल (सं. 15354312पी अब जेसी-378941वाई),
01 जून 2009

हवलदार सुरेश ए चौपकर (सं. 15350665एक्स अब
जेसी-378942एफ), 01 जून 2009

हवलदार एस नारायन सिंह (सं. 14269369डब्ल्यू अब
जेसी-378968डब्ल्यू), 01 जून 2009

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 15352672एम अब जेसी-378990एफ),
01 जून 2009

हवलदार सनातन साहू (सं. 15353535ए अब जेसी-378991के),
01 जून 2009

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 15354631एफ अब जेसी-378996एच),
02 जून 2009

हवलदार समशेर सिंह बक्सेल (सं. 15351991एम अब जेसी-378999डब्ल्यू),
02 जून 2009

हवलदार ए वी आई रेड्डी एल ईश्वरा पीडी (सं. 15351665के अब
जेसी-379002एल), 02 जून 2009

हवलदार राज कुमार यादव (सं. 15353688के अब जेसी-379003एल),
02 जून 2009

हवलदार जय देव सिंह (सं. 15353166एन अब जेसी-379005डब्ल्यू),
02 जून 2009

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 15353273पी अब जेसी-379007एफ),
02 जून 2009

ए वी बागुर
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th January 2010

ARMY BRANCH

No. 31, dated 14th December 2009—The President is pleased to make the following appointments under AI 4/2001 :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain on Probation

Mayur Varshney (VS-1148L), RVC, 01 Jun 2009

Taraknath Bhunia (VS-1149N), RVC, 01 Jun 2009

Naresh Kumar (VS-1150H), RVC, 01 Jun 2009

Vikas Sharma (VS-1151L), RVC, 01 Jun 2009

Rajesh Sharma (VS-1152N), RVC, 01 Jun 2009

Gurjeet Singh Bali (VS-1153W), RVC, 01 Jun 2009

Anshul Arora (VS-1154Y), RVC, 01 Jun 2009

Pushpendra Singh Kshatriya (VS-1155F), RVC, 01 Jun 2009

Arun Sharma (VS-1156K), RVC, 01 Jun 2009

Inderjeet Singh (VS-1157M), RVC, 01 Jun 2009

A V BAGUR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 32, dated 15th December 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
INFANTRY
THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Kamal Singh (JC-519432M), 01 May 2009

Sub Mohinder Singh, SC (JC-519488Y), 01 May 2009

To be Sub

Nb Sub Mahinder Singh (JC-520454X), 18 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 02 Dec 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Sohan (JC-520372P), 25 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mubarkh Singh (JC-520503P), 06 May 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 08 Mar 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Parminder Katoch (JC-520509W), 27 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 08 Mar 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Parkash Chand Dhiman (JC-520106W), 22 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jarlal Singh (JC-520335F), 04 May 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ved Parkash Thakur (JC-520378W), 28 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Udham Chand (JC-520262A), 04 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub (Clk) with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub (Clk) Dile Ram (JC-520268F), 01 May 2009

To be Sub Maj

Sub Mohar Singh (JC-519477M), 03 Mar 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Mar 2009 without effect on pay & allowances)

Sub Terath Ram (JC-519309N), 01 Apr 2009

To be Sub

Nb Sub Kuldip Chand (JC-520259A), 01 Mar 2008

Nb Sub Rajinder Kumar (JC-520466M), 19 Mar 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Salwan Singh (JC-520567A), 08 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 05 Dec 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Farman Chand (JC-520325X), 01 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 12 Jan 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Puran Singh (JC-520424A), 21 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kesh Raj (JC-520440X), 06 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) C Maria Vilmut (JC-520252W), 18 Mar 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub (Clk) with effect from 01 Feb 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub (Clk) Sankar Datta (JC-520266W), 17 Mar 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub (Clk) with effect from 01 Mar 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub (Clk) Babu Ram Sharma (JC-520253Y), 04 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub (Clk) with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub (Clk) Sanjay Kumar (JC-520267Y), 03 Apr 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub (Clk) with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

3 GR

To be Sub Maj

Rank, Name, JC No. and Date of Promotion

Sub Ram Bahadur Bura (JC-607464X), 18 Jan 2009/01 Jan 2009*

Sub Jag Bahadur Gurung (JC-607314F), 01 Mar 2009/01 Feb 2009*

Sub Yarn Bahadur Thapa (JC-607519W), 06 Apr 2009/01 Mar 2009*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

9 GR

To be Sub Maj

Rank, Name, JC No. and Date of Promotion

Sub Krishna Bahadur Adhikari (JC-629525K), 28 Aug 2008/04 Aug 2008*

Sub Lil Bahadur Thapa (JC-629567W), 21 Nov 2008/01 Oct 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Harbans Lal (JC-429912W), 01 Dec 2008

Sub Prakash Chand (JC-429077Y), 01 May 2009

Sub Surjeet Singh (JC-429456P), 01 Jun 2009

Sub Jagdish Raj (JC-429246P), 01 Jun 2009

To be Sub

Nb Sub Parbodh Singh (JC-429862P), 01 May 2008

Nb Sub Jagdev Singh (JC-430188H), 24 Jun 2008

Nb Sub Kewal Singh (JC-430138X), 01 Oct 2008

Nb Sub Neem Chand (JC-430154P), 01 Oct 2008

Nb Sub Yash Pal (JC-430182F), 01 Oct 2008

Nb Sub Darshan Lal (JC-430148F), 01 Dec 2008

Nb Sub Harbans Lal (JC-430150Y), 01 Dec 2008

Nb Sub Dharam Singh (JC-430158L), 21 Jan 2009

Nb Sub Ashok Kumar (JC-430293Y), 01 Feb 2009

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-430020W), 01 Apr 2009

Nb Sub Jagtar Singh (JC-430033N), 01 Apr 2009

Nb Sub Duni Chand (JC-430237A), 01 Apr 2009

Nb Sub Ram Charan Sharma (JC-430274N), 01 Apr 2009

Nb Sub Pratap Singh (JC-430128N), 01 May 2009

To be Sub Maj

Sub Rajinder Singh (JC-429159F), 01 Feb 2009

To be Sub

Nb Sub Balbir Singh (JC-430105M), 01 Aug 2008

Nb Sub Baldev Singh (JC-429981L), 07 Dec 2008

Nb Sub Hans Raj (JC-429983W), 01 Jan 2009

Nb Sub Joginder Singh (JC-429611L), 01 Feb 2009

Nb Sub Avtar Singh (JC-429673L), 01 Feb 2009

Nb Sub Chanan Singh (JC-429726Y), 01 Feb 2009

Nb Sub Kuldip Singh (JC-430123P), 01 Feb 2009

To be Sub Maj

Sub Tarlok Singh (JC-428603A), 01 Apr 2009

To be Sub

Nb Sub Sarabjit Singh (JC-429853N), 01 Apr 2009

Nb Sub Surinder Paul (JC-430127L), 01 Apr 2009

THE SIKH REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Jarnail Singh (JC-498790F), 01 Apr 2009

Sub Gurdev Singh (JC-498791K), 01 Apr 2009

To be Sub

Nb Sub Avtar Singh (JC-499484Y), 07 Feb 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 08 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amir Singh (JC-499550W), 14 Mar 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 13 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ajaib Singh (JC-499596Y), 01 Mar 2009

Nb Sub Ranjit Singh (JC-499612L), 28 Mar 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 05 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Money Singh (JC-499565Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499615Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499639H), 01 Apr 2009

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Ashok Kumar Yadav (JC-499580N), 01 Apr 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Amar Singh (JC-499630N), 16 Mar 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj

Sub Dharshan Singh (JC-498606L), 01 May 2009

Sub Tarsem Singh (JC-498660Y), 01 May 2009

To be Sub

Nb Sub Amrik Singh (JC-499683M), 01 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurtej Singh (JC-499453Y), 15 Jan 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurnam Singh (JC-499463H), 16 Jan 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manjit Singh (JC-499635M), 09 Jan 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harnek Singh (JC-499381A), 30 Apr 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 07 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hira Singh (JC-499382H), 01 May 2009

THE KUMAON REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Diwan Giri Goswami (JC-539144F), 01 Sep 2008

Sub Mohan Singh (JC-539349W), 19 Dec 2008/01 Dec 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Umeshwar Singh (JC-539291K), 19 Jan 2009/01 Jan 2009*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

THE NAGA REGIMENT

Sub B D Bengam Anal (JC-590017P), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) Bachan Lal (JC-592530P), 04 Feb 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Dec 2008)

Sub (GD) Manzoor Ahmed Bhat, SM (JC-592621Y), 02 Apr 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009)

To be Substantive Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Swaran Singh Katal (JC-592633N), 02 May 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 May 2009)

Sub (GD) Vijay Kumar (JC-592667F), 15 Apr 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Apr 2009)

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) Ranbir Singh (JC-592429P), 20 Apr 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Apr 2009)

Sub (GD) Mulkh Raj (JC-592589P), 01 Apr 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009)

THE RAJPUT REGIMENT

Promotion of JCOs to the rank of Sub Maj

Sub Maj Inder Pal Singh (JC-478804P), 01 Apr 2009

Sub Maj Raj Pal Singh (JC-478861W), 01 May 2009

Promotion of JCOs to the rank of Sub

Sub Rakesh Singh (JC-479581A), 01 Mar 2008

Sub Maharaj Singh (JC-479619N), 05 May 2008/28 Mar 2008*

*(Seniority wef 28 Mar 2008 without pay and allces)

Sub Bali Ahmed Shah (JC-479777H), 30 Nov 2008/01 Jun 2008*

*(Seniority wef 01 Jun 2008 without pay and allces)

Sub Samay Raj Singh (JC-479772K), 04 Sep 2008/01 Aug 2008*

*(Seniority wef 01 Aug 2008 without pay and allces)

Sub Kishor Singh (JC-479750L), 11 Oct 2008/01 Sep 2008*

*(Seniority wef 01 Sep 2008 without pay and allces)

Sub Nagar Mal (JC-479809A), 01 Oct 2008

Sub Jas Ram Singh (JC-479635L), 01 Oct 2008

Sub Surender Pal (JC-479890X), 01 Nov 2008

Sub Ajay Adak (JC-479444W), 01 May 2009/01 Nov 2008*

*(Seniority wef 01 Nov 2008 without pay and allces)

Sub Ravinder Pal Singh (JC-479868M), 12 Nov 2008/
01 Nov 2008*

*(Seniority wef 01 Nov 2008 without pay and allces)

Sub Ram Singh (JC-479845L), 01 Jan 2009

Sub Ram Saran (JC-479768F), 01 Feb 2009

Sub Krishan Singh (JC-479861H), 07 Feb 2009/01 Feb
2009*

*(Seniority wef 01 Feb 2009 without pay and allces)

Sub Tohid Husain (JC-479872P), 09 Feb 2009/01 Feb 2009*

*(Seniority wef 01 Feb 2009 without pay and allces)

Sub Ram Parvesh Singh (JC-479746F), 01 Apr 2009

Sub Shishu Pal Singh (JC-479950F), 01 Apr 2009

Sub Gulab Singh Gaud (JC-479919P), 01 Apr 2009

Sub Nihal Singh Chauhan (JC-479803Y), 01 May 2009

Sub Inderjeet Singh (JC-479867K), 01 May 2009

Promotion of JCOs to the rank of Sub Maj

Sub Maj Santosh Kumar Mishra (JC-478792L), 08 Apr
2009

Sub Maj Rajesh Kumar Singh (JC-479047X), 09 Apr 2009

Sub Maj Narendra Singh (JC-479102X), 21 May 2009

Promotion of JCOs to the rank of Sub (Clk)

Sub (Clk) R Krishna Murthi (JC-479717N), 22 Apr 2009/
01 Oct 2008*

*(Seniority wef 01 Oct 2008 without pay and allces)

Sub (Clk) Karam Singh Karki (JC-479723F), 01 Apr 2009

Promotion of JCOs to the rank of Sub

Sub Hans Raj (JC-479848Y), 10 Jul 2008/01 Jun 2008*

*(Seniority wef 01 Jun 2008 without pay and allces)

Sub Sant Ram (JC-479836K), 16 Oct 2008/01 Jun 2008*

*(Seniority wef 01 Jun 2008 without pay and allces)

Sub Suresh Chand (JC-479476Y), 01 Sep 2008

Sub Labh Singh (JC-479863N), 05 Sep 2008

Sub Vishal Singh Inda (JC-479786K), 01 Oct 2008

Sub Krishan Kumar (JC-479589F), 15 Nov 2008/01 Nov
2008*

*(Seniority wef 01 Nov 2008 without pay and allces)

Sub Satish Kumar (JC-479660K), 01 Dec 2008

Sub Gajanand Yadav (JC-479690F), 01 Dec 2008

Sub Ved Pal Singh (JC-479783W), 01 Jan 2009

Sub Baldeva Ram (JC-479810P), 01 Jan 2009

Sub Joginder Singh (JC-479859L), 01 Jan 2009

Sub Jeet Pal Singh Gurjar (JC-479595P), 07 Mar 2009/
31 Jan 2009*

*(Seniority wef 31 Jan 2009 without pay and allces)

Sub Jai Chand (JC-479707K), 01 Feb 2009

Sub Jog Singh Bhati (JC-479882Y), 01 Feb 2009

Sub Sumer Singh (JC-479814L), 20 Mar 2009

Sub Sri Pal Singh (JC-479794H), 11 Apr 2009/01 Apr 2009*

*(Seniority wef 01 Apr 2009 without pay and allces)

Sub Krishan Pal (JC-479839X), 01 Apr 2009

Sub Satbir (JC-479954H), 01 Apr 2009

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Sakaram Shankar Chalke (JC-458396N), 05 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun
2008 without effect on pay and allowances)

Sub Gian Chand (JC-458109Y), 17 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec
2008 without effect on pay and allowances)

Sub Pandurang Shamu Desai (JC-458809M), 01 Jan 2009

Sub Jadhav Jaywant Maruti (JC-458692Y), 06 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Laxman Vandure (JC-458642N), 05 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Ladu Bhanu Gawade (JC-458583M), 06 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maruti Ganapati Shinde (JC-458373M), 01 Apr 2009

To be Sub Maj (Clk)

Sub/Clk Ingale Mahadeo Motiramji (JC-458437M), 02 Mar
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef
01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Ani Ullah (JC-459302X), 10 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dilip Nana Shedge (JC-459363P), 01 Mar 2008

Nb Sub Desai Pravin Jayashingrao (JC-459307W), 08 Dec
2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pundalik Bhikappa Patil (JC-459521Y), 11 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jadhav Chandrakant Ramchandra (JC-459564N), 11 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sanjay Kokane (JC-459572M), 29 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 08 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khot Machindra Sidram (JC-459308Y), 08 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Ganpati Rangrao (JC-459588X), 08 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Lal Patel (JC-459683K), 21 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ghadage Sunil Namdeo (JC-459395X), 16 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suryawanshi Sanjay Rajaram (JC-459343F), 12 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Narayan Maruti Patil (JC-459425K), 08 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gawade Kundlik Laxman (JC-459444P), 18 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lad Sudhir Ramchandra (JC-459365A), 12 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dattatray Tukaram Patil (JC-459445X), 10 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nabisab Nadaf (JC-459341W), 12 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Thorat Manik Bhau (JC-459438F), 05 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhoite Sudhakar Manik (JC-459369W), 07 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub A Ismail (JC-459370L), 02 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Garkar Balasaheb Balwant (JC-459429A), 01 Jan 2009

Nb Sub Patil Arun Babaso (JC-459459X), 14 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajaram Fatu Naik (JC-459546L), 27 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shete Sanjay Dadasaheb (JC-459547N), 12 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mhaske Bhagwan Damu (JC-459612H), 01 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kharade Balu Sawalaram (JC-459397H), 01 Feb 2009

Nb Sub Chandrakant Tukaram Jadhav (JC-459358K), 09 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagdale Adik Dagadu (JC-459470W), 08 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kolekar Shankar Yashwant (JC-459424X), 01 Feb 2009

Nb Sub Bhosale Anil Vithal (JC-459495H), 10 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gawade Arjun Pundalik (JC-459496L), 01 Feb 2009

Nb Sub Patil Prakash Maruti (JC-459506K), 01 Feb 2009

Nb Sub Ram Narayan Tiwari (JC-459550N), 13 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Ramesh Dattu (JC-459590P), 09 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohd Ayub Ali (JC-459591X), 09 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dagade Rajaram Raghuram (JC-459592A), 06 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Swami (JC-459595N), 12 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub More Rohidas Maruti (JC-459376M), 20 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kumar Zende Dattatray Nhanu (JC-459594L), 20 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sanadi Sulatanso Sileman (JC-459623P), 17 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shinde Ramesh Pandharinath (JC-459430P), 10 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bogar Sarjerao Krishna (JC-459431X), 10 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub J Jaya Prakash (JC-459448L), 06 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhande Ajay Kumar Marutirao (JC-459449N), 10 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surve Pramod Jayaram (JC-459467W), 06 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sayyad Shahajahan Ambir (JC-459513A), 10 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raosaheb Vishwanath Mhaske (JC-459536F), 01 Apr 2009

Nb Sub Chaudhari Ramdas Haridas (JC-459653M), 17 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Clk

Nb Sub/Clk Ashok Kumar Singh Yadav (JC-459419P), 04 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Gopal Singh (JC-579772Y), Jak Rif, 01 Apr 2009

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-580306W), Jak Rif, 01 Nov 2008

Nb Sub Lekh Raj (JC-580356F), Jak Rif, 12 Nov 2008

Nb Sub Uttam Singh (JC-580390F), Jak Rif, 21 Nov 2008

Nb Sub Jaswant Singh, SM (JC-580319N), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Smail Khan Dhillon (JC-580323W), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-580415H), Jak Rif, 31 Dec 2008

Nb Sub Hari Avtar Singh (JC-580250P), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Parshotam Chand (JC-580255N), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Yog Raj (JC-580300P), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Tilak Raj (JC-580411M), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Paramjit Singh (JC-580324Y), Jak Rif, 01 Mar 2009

Nb Sub Rachhpal Singh (JC-580458X), Jak Rif, 01 Mar 2009

Nb Sub Jang Bahadur (JC-580026H), Jak Rif, 01 Apr 2009

Nb Sub Dundi Raj Thapa (JC-580070M), Jak Rif, 01 Apr 2009

Nb Sub Tika Ram Chhetri (JC-580072X), Jak Rif, 01 Apr 2009

Nb Sub Abdul Hamid (JC-580224N), Jak Rif, 01 Apr 2009

Nb Sub Deepak Kumar Mal (JC-580239W), Jak Rif, 01 Apr 2009

Nb Sub Major Singh (JC-580253H), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Tak Bahadur (JC-580257Y), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Inder Singh (JC-580264P), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Udham Singh (JC-580292F), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Daya Ram (JC-580310Y), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Kewal Krishan (JC-580326K), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Paramjit Singh (JC-580341Y), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Aytar Singh (JC-580383L), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Sulakhan Ram (JC-580386Y), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Vinod Kumar (JC-580393P), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Shamsher Singh (JC-580406F), Jak Rif, 01 Apr 2009
 Nb Sub Vijay Kumar (JC-580427X), Jak Rif, 01 Apr 2009

THE SIKH REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Balkar Singh (JC-498701X), 06 May 2009
 (Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Shamsher Singh (JC-499627N), 03 Nov 2008
 (Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 22 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Balwinder Singh (JC-499649M), 16 May 2009
 (Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Tarlok Singh (JC-499693W), 05 May 2009
 (Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Balbir Singh (JC-499677Y), 04 May 2009
 (Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 10 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Papinder Singh (JC-499679K), 13 May 2009
 (Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub Maj

Sub M Vasudevan (JC-438483A), 17 Oct 2007
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2007 w/o effect on pay and allces)
 Sub T Palani (JC-438647L), 01 Oct 2007
 Sub Paulson PC (JC-438282F), 01 Nov 2007

Sub Anto KK (JC-210955L), 26 Nov 2007
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2007 w/o effect on pay and allces)
 Sub S Sundar (JC-438220F), 01 Dec 2007
 Sub Dominic K Thomas (JC-438095H), 01 Dec 2007
 Sub Parasharam Narayan Kukadalkar (JC-438165W), 01 Dec 2007
 Sub R Sendur Pandian (JC-438457Y), 03 Dec 2007
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 w/o effect on pay and allces)
 Sub Mannarswami D (JC-438318P), 06 Feb 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2008 w/o effect on pay and allces)
 Sub Gudulal Usman Walikar (JC-438269X), 01 Feb 2008
 Sub N Durai (JC-548224A), 01 Mar 2008
 Sub P Chandiran (JC-438564A), 01 Apr 2008
 Sub M Mohan (JC-438161A), 01 May 2008
 Sub Sethumadhavan P (JC-438335P), 01 Jun 2008
 Sub Rajan PV (JC-438390L), 01 Jun 2008
 Sub Balakrishnan Arippa (JC-438341H), 01 Sep 2008
 Sub Betta Gouda (JC-438654F), 01 Sep 2008
 Sub Rajukurian K (JC-498651X), 01 Oct 2008
 Sub Jerald KA (JC-438198F), 01 Nov 2008
 Sub John PI (JC-438595A), 01 Nov 2008
 Sub A Joseph Maickal Raj (JC-438676A), 01 Nov 2008
 Sub Rajan PK (JC-438556F), 14 Nov 2008
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2008 w/o effect on pay and allces)
 Sub Vijayan H (JC-438675X), 01 Nov 2008
 Sub D Ponnaiah (JC-438755P), 01 Dec 2008
 Sub Yadava Murthi G (JC-438779Y), 01 Dec 2008
 Sub Shrishaila Shilleenawar (JC-438758H), 01 Jan 2009
 Sub Yadava CK (JC-438892N), 01 Feb 2009
 Sub Subbaiah AP (JC-438424N), 12 Mar 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2008 w/o effect on pay and allces)
 Sub Maniyan K (JC-438583L), 01 Apr 2009
 Sub Sasi R (JC-438655K), 01 Apr 2009
 Sub Duppala Appa Rao (JC-438708X), 01 Apr 2009
 Sub Babu M (JC-438813N), 10 Apr 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009 w/o effect on pay and allces)

Sub Y Rajasekhara Reddy (JC-438936A), 02 Jun 2009
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2009
w/o effect on pay and allces)

Sub (Clk) George Britto (JC-438751Y), 01 Apr 2008

Sub (Clk) P Kumar (JC-438794N), 02 Apr 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008
w/o effect on pay and allces)

Sub (Clk) Hareendran Kalurivattath (JC-438844N),
01 Sep 2008

Sub (Clk) Ganesan S (JC-438966X), 01 Oct 2008

THE SIKH REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-499631W), 04 Feb 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dilbag Singh (JC-499633F), 29 Apr 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 15 Mar
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurmeet Singh (JC-499673H), 29 Apr 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 19 Mar
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rachhpal Singh (JC-499500L), 12 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surjit Singh (JC-499628W), 08 Apr 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurdev Singh (JC-499650F), 22 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499651K), 30 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 27 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amrit Singh (JC-499668X), 10 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 27 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kamaljit Singh (JC-499383L), 20 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajinder Singh (JC-499692N), 10 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May
2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rupinder Singh (JC-499691L), 05 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun
2009 without effect on pay and allowances)

THE GRENADIERS

To be Sub

Nb Sub Rasik Ali (JC-450147A), 01 Oct 2008

Nb Sub Ashok Kumar (JC-450212P), 01 Oct 2008

Nb Sub Shish Ram (JC-450215H), 01 Oct 2008

Nb Sub Jeew Raj Singh (JC-450230Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Tilak Raj (JC-450241K), 01 Oct 2008

Nb Sub Karan Singh (JC-450254F), 01 Oct 2008

Nb Sub Madan Lal (JC-450269K), 01 Oct 2008

Nb Sub Bhanwar Singh Doodi (JC-450270Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Dalbir Singh (JC-450291L), 01 Oct 2008

Nb Sub Balbir Singh (JC-450294H), 01 Oct 2008

Nb Sub Mangal Singh (JC-450321P), 01 Oct 2008

Nb Sub Maksud Ali Khan (JC-450148H), 06 Oct 2008

Nb Sub Sandeep Kumar (JC-450193P), 11 Oct 2008

Nb Sub Suwa Kathat (JC-450236Y), 19 Oct 2008

Nb Sub Rambir (JC-450121L), 23 Oct 2008

Nb Sub Chandan Singh (JC-449874L), 01 Nov 2008

Nb Sub Rama Shankar Singh (JC-449912W), 01 Nov 2008

Nb Sub Khatri Ajit Kumar (JC-449151P), 01 Nov 2008

Nb Sub Dev Karan Singh (JC-449952X), 01 Nov 2008

Nb Sub Suresh Kumar Singh (JC-449984A), 01 Nov 2008

Nb Sub Shamsheer Singh (JC-450075F), 01 Nov 2008

Nb Sub Zala Dharmendra Singh (JC-450156F), 01 Nov
2008

Nb Sub Shokat Khan (JC-450078P), 01 Nov 2008

Nb Sub Rameshwar Lal (JC-450131P), 01 Nov 2008

Nb Sub Ajit Lal (JC-450165H), 01 Nov 2008

Nb Sub Sarwan Singh Patyal (JC-450203N), 01 Nov 2008

Nb Sub Rajender Prasad (JC-450296Y), 01 Nov 2008

Nb Sub Babu Lal (JC-449906H), 13 Nov 2008

Nb Sub Moti Singh (JC-450024M), 13 Nov 2008

Nb Sub Yuvraj Singh (JC-450095P), 01 Dec 2008

Nb Sub Balbir Singh (JC-450204W), 01 Dec 2008

Nb Sub Prem Pal (JC-450223F), 02 Dec 2008

Nb Sub Rajender Poul (JC-450324P), 01 Dec 2008

Nb Sub Vidhya Sagar Sharma (JC-450003X), 17 Dec 2008

Nb Sub Kewal Singh (JC-449832Y), 01 Jan 2009

Nb Sub Faruk Ali (JC-449875N), 01 Jan 2009

Nb Sub Ranbir Singh (JC-450306M), 01 Jan 2009

Nb Sub Biraj Raj (JC-450160K), 01 Jan 2009

Nb Sub Joginder Kumar (JC-450263K), 01 Jan 2009

Nb Sub Ayub Khan (JC-449897K), 01 Jan 2009

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-449980K), 01 Jan 2009

Nb Sub Sumer Singh (JC-449983X), 01 Jan 2009

Nb Sub Jagat Pal Singh (JC-450001M), 01 Jan 2009

Nb Sub Kirpal Singh (JC-450032M), 01 Jan 2009

Nb Sub Vagdawat Singh (JC-450122N), 01 Jan 2009

Nb Sub Chaudhri Ramesh Bhai Ramji Bhai (JC-450273M),
01 Jan 2009

Nb Sub Sube Singh (JC-449968H), 27 Jan 2009

Nb Sub Soraj Meena (JC-450020X), 01 Feb 2009

Nb Sub Gen Dass (JC-450130.M), 01 Feb 2009

Nb Sub Ramesh Chand (JC-450187F), 06 Feb 2009

Nb Sub Naresh Kumar (JC-450163X), 01 Mar 2009

Nb Sub Som Dutt (JC-450246H), 01 Mar 2009

Nb Sub Vikram Singh (JC-450259A), 01 Mar 2009

Nb Sub Man Singh (JC-450280H), 01 Mar 2009

Nb Sub Parmar Savji Bhagwan Ji (JC-450310P), 01 Mar
2009

Nb Sub Zakir Hussain (JC-449934P), 09 Mar 2009

Nb Sub Baljit Singh (JC-450074Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Habib Ahmed (JC-450124Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Rajender Singh (JC-450231A), 01 Apr 2009

Nb Sub Chaman Lal (JC-450242M), 01 Apr 2009

Nb Sub Ranjit Singh (JC-450243P), 01 Apr 2009

Nb Sub Mohammed Iqbal (JC-45015X), 01 Apr 2009

To be Subedars (Clerk)

Nb Sub (Clk) Om Prakash (JC-450079X), 01 Jan 2009

Nb Sub (Clk) Ramesh Chander Singh (JC-450081P),
01 Jan 2009

Nb Sub (Clk) Suresh Kumar (JC-450082X), 01 Jan 2009

Nb Sub (Clk) Karan Singh (JC-450083A), 01 Jan 2009

Nb Sub (Clk) Afsar Ali Khan (JC-450084H), 01 Feb 2009

Nb Sub (Clk) Suresh Chandra Rout (JC-450097A), 01 Feb
2009

Nb Sub (Clk) Arun Kumar Tiwari (JC-450134H), 01 Mar
2009

Nb Sub (Clk) Pradeep Kumar Pandey (JC-450135L),
01 Apr 2009

Nb Sub (Clk) Radha Krishnan (JC-450184N), 01 Jun 2009

THE RAJPUT REGIMENT

Promotion of JCOs to the rank of Subedars

Sub Nahnu Lal Gurjar (JC-479679H), 19 Oct 2007/01 Jul
2007*

*(Seniority wef 01 July 2007 without pay and allces)

Sub Samay Singh Gurjar (JC-479806M), 08 Sep 2008/
01 Aug 2008*

*(Seniority wef 01 Aug 2008 without pay and allces)

Sub Shiv Ram Gurjar (JC-479791P), 01 Sep 2008

Sub Om Prakash (JC-479870K), 22 Nov 2008/01 Nov 2008*

*(Seniority wef 01 Nov 2008 without pay and allces)

Sub Virender Singh, SM, (JC-479708M), 01 Nov 2008

Sub Virender Singh (JC-479802W), 17 Mar 2009/01 Feb
2009*

*(Seniority wef 01 Feb 2009 without pay and allces)

Sub Samir Das (JC-479877N), 02 Feb 2009/01 Feb 2009*

*(Seniority wef 01 Feb 2009 without pay and allces)

Sub Ram Charan Singh (JC-479812A), 01 Jun 2009

Sub Laxman Singh Kushwah (JC-479790L), 30 May 2009/
01 Mar 2009*

*(Seniority wef 01 Mar 2009 without pay and allces)

Sub Munna Lal (JC-479918M), 28 May 2009/01 Apr 2009*

*(Seniority wef 01 Apr 2009 without pay and allces)

THE SIKH LI

To be Subedars (GD)

Nb Sub Bant Singh (JC-509158M), 20 Jul 2008

Nb Sub Amrik Singh (JC-509245A), 21 Jul 2008

Nb Sub Om Prakash (JC-509313H), 21 Jul 2008

Nb Sub Jagtar Singh (JC-509119N), 01 Sep 2008

Nb Sub Surinder Singh (JC-509230X), 01 Sep 2008

Nb Sub Daljit Singh (JC-509139F), 01 Sep 2008

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-509409L), 01 Sep 2008

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-509306M), 08 Oct 2008

Nb Sub Hira Singh (JC-509335F), 09 Oct 2008

Nb Sub Hari Singh (JC-509375H), 09 Oct 2008

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-509388A), 01 Nov 2008

Nb Sub Dharam Singh Chohan (JC-509390X), 01 Nov
2008

Nb Sub Jagit Singh (JC-509407A), 01 Nov 2008

Nb Sub Pirthi Singh (JC-509191K), 01 Dec 2008
 Nb Sub Devi Ditta (JC-509484P), 01 Dec 2008
 Nb Sub Raghubir Singh (JC-509459W), 01 Dec 2008
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-509279N), 01 Dec 2008
 Nb Sub Darshan Singh (JC-509280H), 01 Dec 2008
 Nb Sub Hardip Singh (JC-509170N), 16 Dec 2008
 Nb Sub Rawinder Singh (JC-509181A), 16 Dec 2008
 Nb Sub Kulwant Singh (JC-509463Y), 18 Dec 2008
 Nb Sub Gurcharan Singh (JC-509424A), 01 Jan 2009
 Nb Sub Darshan Singh (JC-509442H), 01 Jan 2009
 Nb Sub Suba Singh (JC-509391A), 01 Jan 2009
 Nb Sub Avtar Singh (JC-509414W), 01 Jan 2009
 Nb Sub Gian Singh (JC-509443L), 01 Jan 2009
 Nb Sub Chaman Singh (JC-509472A), 13 Jan 2009
 Nb Sub Pirthipal Singh (JC-509450F), 01 Feb 2009
 Nb Sub Jasvir Singh (JC-509410A), 01 Feb 2009
 Nb Sub Santokh Singh (JC-509182H), 08 Feb 2009
 Nb Sub Surinderpal Singh (JC-509451K), 15 Feb 2009
 Nb Sub Gurdip Singh (JC-509436P), 01 Mar 2009
 Nb Sub Sewak Singh (JC-509192M), 01 Apr 2009

JAK LI

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub (Clk) Yeah Paul Sharma (JC-593110F), 28 Feb 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Feb 2009)
 Nb Sub (Clk) Rakesh Kumar Bhardwaj (JC-593131X),
 03 Apr 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Apr 2009)
 Nb Sub (Clk) Girish Chandra Bhadola (JC-593140Y),
 08 May 2009
 (Gtd seniority in the rank of Sub Clk wef 01 May 2009)

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub (Clerk)

Nb Sub (Clk) Dal Chandra (JC-439054H), 13 Feb 2008*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Feb 2006
 w/o effect on pay and allces)
 Nb Sub (Clk) Mohan Prasad (JC-439411H), 01 Nov 2007*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Aug 2007
 w/o effect on pay and allces)

Nb Sub (Clk) Anil Kumar (JC-439413N), 11 Feb 2008*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Aug 2007
 w/o effect on pay and allces)
 Nb Sub (Clk) Sudhakaran P (JC-439477Y), 01 Apr 2008
 Nb Sub (Clk) Vijayan Pillai (JC-439488L), 06 Apr 2008*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Apr 2008
 w/o effect on pay and allces)
 Nb Sub (Clk) V R Bharathi Sreenivasan (JC-439489N),
 05 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Apr 2008
 w/o effect on pay and allces)
 Nb Sub (Clk) Sathisha P (JC-439490H), 01 Apr 2008
 Nb Sub (Clk) Mahadev Nerlagi (JC-439491L), 01 Apr 2008
 Nb Sub (Clk) N Thankaraj (JC-439507L), 01 May 2008
 Nb Sub (Clk) S Maruthamuthu (JC-439517P), 01 Jul 2008
 Nb Sub (Clk) Udaivir Singh (JC-439560W), 30 Jul 2008*
 *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Jul 2008
 w/o effect on pay and allces)
 Nb Sub (Clk) Karthikeyan R (JC-439561Y), 01 Jul 2008
 Nb Sub (Clk) Subhash Kumar (JC-439562F), 01 Sep 2008
 Nb Sub (Clk) Ujjwal Baran Baidya (JC-439600M), 01 Oct
 2008

Nb Sub (Clk) Appu P (JC-439601P), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk) Ved Prakash (JC-439602X), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk) Dharambir Singh (JC-439610W), 01 Nov
 2008

Nb Sub (Clk) Kamal Singh (JC-439633X), 01 Apr 2009
 *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Mar 2009
 w/o effect on pay and allces)

Nb Sub (Clk) Unnikrishnan P K (JC-439650X), 12 Apr
 2009

*(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) wef 01 Apr 2009
 w/o effect on pay and allces)

LADAKH SCOUTS

To be Subedar (GD)

Nb Sub Skarma Samstan (JC-588347P), 01 Jan 2008
 Nb Sub Tashi Stobdan (JC-588299A), 02 Apr 2008/01 Apr
 2008*
 Nb Sub Tashi Angchok (JC-588284X), 01 Jul 2008
 Nb Sub Padma Angdus (JC-588285A), 01 Jul 2008

Nb Sub Zafar Ali (JC-588371L), 17 Nov 2008/01 Nov 2008*

Nb Sub Chhetan Gialchan (JC-588373W), 01 Nov 2008

Nb Sub Chhering Angchok (JC-588366A), 03 Nov 2008/01 Nov 2008*

Nb Sub Chhewang Angdus (JC-588287L), 01 Dec 2008

Nb Sub Sonam Dorje (JC-588315M), 10 Feb 2009/01 Jan 2009*

Nb Sub Phunchok Namgial (JC-588394M), 01 Dec 2008

Nb Sub Norbo Sonam (JC-588295K), 01 Jan 2009

Nb Sub Skarma Ishe (JC-588374Y), 01 Jan 2009

Nb Sub Chhering Stobdan, S M (JC-588375F), 01 Jan 2009

Nb Sub Chhering Dorje (JC-588377M), 01 Jan 2009

Nb Sub Dorje Wangial (JC-588396X), 13 Feb 2009/01 Feb 2009*

Nb Sub Tsewang Dorjay (JC-588406W), 05 Feb 2009/01 Feb 2009*

Nb Sub Tashi Angchok (JC-588413M), 01 Mar 2009

Nb Sub Angchok Raftan (JC-588387W), 01 Mar 2009

Nb Sub Nawang Namgial (JC-588319H), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

Nb Sub Skarma Chenba Chhosing (JC-588321A), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

To be Subedar Clerk (GD)

Nb Sub Clk Mohamad Sultan Wani (JC-588358F), 01 Jul 2008

To be Naib Subedar (GD)

Hav Sharap Phunchok (No. 9923606A now JC-588481A), 01 Jul 2008

Hav Stamba Jamyang (No. 9923368Y now JC-588482H), 01 Jul 2008

Hav Eshay Rigzin (No. 9923584M now JC-588483L), 01 Jul 2008

Hav Tashi Phunchok (No. 9923620M now JC-588484N), 10 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Angchok Dorjay (No. 9923652P now JC-588485W), 01 Sep 2008

Hav Chhering Angdus (No. 9923211Y now JC-588486Y), 01 Sep 2008

Hav Tsering Samphel (No. 9923675W now JC-588488K), 02 Oct 2008/01 Oct 2008*

Hav Phunchok Wandus (No. 9923425P now JC-588489M), 03 Nov 2008/01 Nov 2008*

Hav Nawang Stanzin (No. 9923662Y now JC-588490F), 01 Nov 2008

Hav Tsewang Norboo (No. 9923784H now JC-588491K), 01 Jan 2009/01 Nov 2008*

Hav Tsetan Namgial (No. 9923884N now JC-588492M), 01 Nov 2008

Hav Wangchan Tantak (No. 9923669H now JC-588493P), 12 Dec 2008/12 Nov 2008*

Hav Tsawang Dorjai (No. 9923661W now JC-588494X), 01 Dec 2008

Hav Rinchen Dorje (No. 9923841Y now JC-588495A), 01 Jan 2009/01 Dec 2008*

Hav Chhering Giacho (No. 9923050F now JC-588497L), 03 Jan 2009/01 Jan 2009*

Hav Rigzin Dorje (No. 9923273Y now JC-588498N), 03 Jan 2009/01 Jan 2009*

Hav Tsewang Dorje (No. 9923690L now JC-588499W), 01 Jan 2009

Hav Tashi Stanzin (No. 9923696M now JC-588500A), 01 Jan 2009

Hav Lhawang Tsering (No. 9923877X now JC-588501H), 01 Jan 2009

Hav Tasi Morup (No. 9923729M now JC-588504W), 02 Mar 2009

Hav Tsewang Dorje (No. 9923653X now JC-588505Y), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Tsering Stanzin (No. 9923910K now JC-588506F), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Tsering Angdus (No. 9923727F now JC-588507K), 01 Apr 2009

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav/Clk Rajinder Singh Raja (No. 15355629W now JC-588480X), 01 Jul 2008

Hav/Clk Shamsher Singh Chahal (No. 9923457X now JC-588487F), 01 Oct 2008

Hav/Clk Phooman Singh (No. 9923458A now JC-588496H), 01 Jan 2009

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances)

THE PUNJAB REGIMENT

(To be Subedars)

Nb Sub Baldev Raj (JC-429937F), 01 Jan 2009

Nb Sub Jagir Singh (JC-429794M), 24 Mar 2009

(To be Subedar Clk)

Nb Sub/Clk Ravinder Singh Thakur (JC-429949W),
01 Jan 2009

Nb Sub/Clk Nachhatar Singh (JC-430021Y), 01 Apr 2009

Nb Sub/Clk Ram Karan (JC-430022F), 01 Apr 2009

Nb Sub/Clk Gopal Singh (JC-430023K), 01 Apr 2009

(To be Subedar)

Nb Sub Krishan Chand (JC-430089A), 01 Jan 2009

Nb Sub Puran Singh (JC-429764P), 01 Feb 2009

Nb Sub Jatender Singh (JC-429789F), 01 Feb 2009

(To be Subedar Clk)

Nb Sub/Clk Yenni Chinna Babu (JC-429992X), 01 Feb
2009

Nb Sub/Clk Rajesh Kumar (JC-429993A), 01 Feb 2009

RECORDS THE PUNJAB REGT

To be Sub

Nb Sub (INFSOL) Bachan Singh (JC-430246F), 21 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Anokh Singh (JC-430039P), 14 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Joginder Singh (JC-430077L), 21 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Rati Ram (JC-430085K), 17 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Subhash Chand Sharma (JC-430143H),
15 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Hem Singh (JC-430272H), 21 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Arjun Singh (JC-430273L), 21 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Mohinder Singh (JC-430155X), 18 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Ramesh Chand Agan (JC-430119M),
18 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Desh Raj Singh (JC-430060X), 29 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 27 Feb 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Lal Chand (JC-430170M), 20 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Jagtar Singh (JC-430025P), 22 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 23 Mar 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Bansi Dhar Kajla (JC-430086M), 16 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Gurnam Singh (JC-430126H), 29 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (INFSOL) Balkar Singh (JC-430072M), 01 May
2009*

Nb Sub (INFSOL) Tarlok Singh (JC-430133Y), 01 May
2009*

9 GR

To be Subedar

Rank, Name, JC No. & Date of Promotion

Nb Sub Ram Bahadur Bhandari (JC-629740P), 01 Feb 2008

Nb Sub Ashok Bahadur Khattri Chhetri (JC-629741X),
01 Mar 2008

Nb Sub/RT Gopal Jha (JC-629215Y), 01 Aug 2008

Nb Sub Hira Bahadur Chhetri (JC-629723P), 01 Jan 2009/
10 Dec 2008*

Nb Sub Kishan Bahadur Shahi (JC-629746W), 17 Jan/
01 Jan 2009*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khim Bahadur Thakuri (JC-629805X), 03 Mar
2009/01 Mar 2009*

Nb Sub Tek Bahadur Khadka (JC-629757H), 01 Apr 2009

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

3CR

To be Sub

Rank, Name, JC No. and Date of Promotion

Nb Sub/Clk Mohammad Ahsan (JC-607542H), 11 May
2009/01 Mar 2008*

Nb Sub Prem Prasad Gurung (JC-607683Y), 01 Mar 2008

Nb Sub Indra Bahadur Thapa (JC-607696W), 01 May 2008

Nb Sub Amar Bahadur Thapa (JC-607690P), 02 Mar 2009/
01 Mar 2009*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Surendra Singh (JC-489583N), 01 Aug 2007

Nb Sub Harjeet (JC-489624M), 01 Sep 2007

Nb Sub Amar Singh (JC-489633N), 19 Sep 2007

Nb Sub Satyabir Singh (JC-489423N), 08 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hanuman Singh (JC-489452H), 01 Nov 2007

Nb Sub Omvir Singh (JC-489521N), 01 Nov 2007

Nb Sub Vijai Pal Singh (JC-489651W), 01 Nov 2007

Nb Sub Satyavir Singh (JC-489570W), 01 Nov 2007

Nb Sub Satypal (JC-489600H), 01 Nov 2007

Nb Sub Braham Prakash (JC-489601L), 01 Nov 2007

Nb Sub Chandan Singh (JC-489696W), 01 Nov 2007

Nb Sub Maha Singh Dagar (JC-489682W), 30 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rohitashwa Kumar Jakhar (JC-489703F), 04 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hoshiyar Singh (JC-489711A), 01 Nov 2007

Nb Sub Yeshpal Singh (JC-489712H), 07 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vijendra Singh (JC-489725A), 01 Nov 2007

Nb Sub Amir Singh (JC-489726H), 05 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Padam Singh (JC-489688X), 01 Nov 2007

Nb Sub Rajbir Singh (JC-489717F), 01 Nov 2007

Nb Sub Pyare Lal (JC-489727L), 01 Nov 2007

Nb Sub Hoshiar Singh Pachar (JC-489747Y), 01 Nov 2007

Nb Sub Satyabir (JC-489793N), 01 Nov 2007

Nb Sub Virendra Singh Rath, SM (JC-489752K), 01 Nov 2007

Nb Sub Rameshwar Lal Jat (JC-489804P), 5 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramesh Chander (JC-489805X), 01 Nov 2007

Nb Sub Rohitashav (JC-489810H), 01 Nov 2007

Nb Sub Sanjive Kumar (JC-489835P), 01 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Girdhari Ram (JC-489699K), 19 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-489704K), 14 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhim Singh (JC-489733Y), 03 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Pal (JC-489806A), 31 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Niwas Solanki (JC-489807H), 01 Dec 2007

Nb Sub Partu Ram (JC-489808L), 01 Dec 2007

Nb Sub Sabarjeet Singh (JC-489787A), 01 Dec 2007

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-489850K), 01 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satbir Singh (JC-489862Y), 27 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahender Singh (JC-489863F), 08 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Daleep Singh Jat (JC-489864K), 01 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 24 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHURY
Under Secy

No. 33, dated 16th December 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Kumar V (JC-269521H), 11 Feb 2009/20 Aug 2008*

Nb Sub Rash Bihari Pandey (JC-268034W), 15 Jun 2009/01 Dec 2008*

Nb Sub Ved Prakash (JC-268004Y), 15 May 2009/05 Feb 2009*

Nb Sub Khushahal Mani (JC-267981L), 08 Mar 2009/22 Feb 2009*

Nb Sub Sukhraj Singh (JC-268556M), 18 Feb 2009/28 Jan 2009*

Nb Sub Jagnathan G (JC-269150L), 01 Jan 2009

Nb Sub K Selvaraj (JC-269365K), 29 Jan 2009/01 Jan 2009*

Nb Sub Ram Pal (JC-269868P), 01 Apr 2009/01 Mar 2009*

Nb Sub Harmal Singh (JC-268655P), 27 Mar 2009/05 Mar 2009*

Nb Sub Sanjoy Dey (JC-267450N), 15 Jun 2009/20 Jan 2009*

Nb Sub Gurugubelli Asiri Naidu (JC-270136L), 18 May 2009/02 Feb 2009*

Nb Sub Baijnath Singh (JC-270150X), 16 May 2009/27 Feb 2009*

Nb Sub Balkar Singh (JC-270086L), 25 Nov 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Jarnail Singh (JC-269726X), 23 Dec 2008/01 Oct 2008*

Nb Sub David (JC-270163P), 10 Oct 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Janardan Prasad Mishra (JC-267960P), 30 Jun 2009/01 Oct 2008*

Nb Sub Gurdip Singh (JC-269031P), 27 Apr 2009/01 Nov 2008*

Nb Sub Amarjit Singh (JC-268949H), 25 Sep 2008/05 Aug 2008*

Nb Sub Radha Krishna Pillai PD (JC-268952H), 14 Jan 2009/01 Aug 2008*

Nb Sub Amarjit Singh (JC-268971N), 24 Feb 2009/31 Aug 2008*

Nb Sub Babu Lal (JC-267570M), 21 Oct 2008/01 Sep 2008*

Nb Sub Kashmir Singh (JC-269830L), 11 Apr 2009/01 Oct 2008*

Nb Sub Ram Gilas Gurjar (JC-270238F), 15 Dec 2008/18 Oct 2008*

Nb Sub Gopal Ganesh Bhekane (JC-269832W), 19 May 2009/01 Sep 2008*

Nb Sub Dharam Chand (JC-264135M), 08 Jun 2009/01 Apr 2009*

Nb Sub Srinibash Mozumdar (JC-267669H), 15 Jun 2009/01 Apr 2009*

Nb Sub Manjeet Singh (JC-262675M), 08 Jul 2009/01 Apr 2005*

Nb Sub Malikhan Singh (JC-268485W), 29 Jun 2009/05 Mar 2009*

Nb Sub Surender Singh (JC-264287N), 08 Jul 2009/01 Apr 2009*

Nb Sub Dharampal (JC-265724P), 01 Apr 2009

Nb Sub Parmjit Singh (JC-266006L), 16 Jun 2009/17 Apr 2009*

Nb Sub Ramesh Chander Yadav (JC-268950X), 17 Jun 2009/18 Apr 2009*

Nb Sub Prasannan K (JC-266302W), 20 Jul 2009/01 May 2009*

Nb Sub Gautam Mishra (JC-270165A), 26 Jun 2009/26 May 2009*

Nb Sub Hardeep Singh (JC-264174L), 29 Jun 2009/01 Jun 2009*

Nb Sub Suwinder Singh (JC-270393H), 03 Jul 2009/01 Jun 2009*

Nb Sub Ram Phal (JC-270297N), 16 Jun 2009/01 Jun 2009*

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-269693X), 26 Jul 2009/07 Jun 2009*

Nb Sub Kolase Gundiram Laxman (JC-267477L), 17 Jul 2009/01 Jun 2009*

Nb Sub Halashwar Prasad Singh (JC-268191H), 23 Jun 2009/23 Jun 2009*

Nb Sub Balbir Singh (JC-268056P), 01 Jul 2009

Nb Sub Vinai Kumar Rai (JC-269095A), 01 Jul 2009

Nb Sub Gopal Das (JC-262184W), 15 Jun 2009/01 Apr 2009*

Nb Sub Balkar Singh Jasrotia (JC-269682L), 13 Jun 2009/21 Oct 2008*

Nb Sub Barmeshwar Singh (JC-268601N), 30 Apr 2009/01 Mar 2009*

Nb Sub Surendra Singh Martiya (JC-269248Y), 02 Apr 2009/01 Mar 2009*

Nb Sub Kate Suresh Ishwara (JC-269754K), 01 Jul 2009
 Nb Sub Mani Narayan Pradhan (JC-269434P), 11 May 2009/01 May 2009*
 Nb Sub Dharmvir Singh (JC-269205K), 12 May 2009/03 May 2009*
 Nb Sub Om Prakash (JC-268386N), 19 Jul 2009/01 Jun 2009*
 Nb Sub Ram Avtar (JC-268657A), 08 Jul 2009/01 Jun 2009*
 Nb Sub Soman B (JC-268877K), 21 Jul 2009/01 Jun 2009*
 Nb Sub Birpal (JC-269087F), 06 Jun 2009/01 Jun 2009*
 Nb Sub Baldev Singh (JC-269775A), 01 Jun 2009
 Nb Sub Ramvir Singh (JC-270351W), 01 Jun 2009
 Nb Sub Amarnath Singh Yadav (JC-270355M), 01 Jun 2009
 Nb Sub Ram Rathi Patel (JC-267944X), 20 Jun 2009
 Nb Sub Sagar Singh (JC-268126H), 21 Jun 2009/01 Mar 2009*

*(Gtd seniority wef)

CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (OP CIPH)

Hav M Iyappan (No. 14267383N now JC-378820X), 01 Apr 2008
 Hav Asoka Kumar R (No. 15352752K now JC-378040M), 01 Apr 2008
 Hav Basanta Kumar Das (No. 15355880M now JC-378372W), 01 Aug 2008
 Hav Shinde Janardan B R (No. 15356866M now JC-378480A), 01 Oct 2008
 Hav Dhan Singh (No. 14255477P now JC-378481H), 01 Oct 2008
 Hav Sawai Singh (No. 14267680X now JC-378483N), 01 Oct 2008
 Hav Surendra Pal (No. 15352647N now JC-378484W), 01 Oct 2008
 Hav Jaya Kumaran A (No. 15353580M now JC-378485Y), 01 Oct 2008
 Hav Bhaskar Parida (No. 15358871W now JC-378552Y), 01 Nov 2008
 Hav Ram Niwas (No. 15352397X now JC-378553F), 01 Nov 2008
 Hav MPK Singha (No. 14260387X now JC-378554K), 01 Nov 2008
 Hav Birpakya Pradhan (No. 15356582H now JC-378555M), 01 Nov 2008

Hav Sher Singh (No. 15358017K now JC-378556P), 01 Nov 2008
 Hav Raghunath Sahoo (No. 15353464K now JC-378557X), 01 Nov 2008
 Hav Vikram Singh (No. 15356489F now JC-378558A), 01 Nov 2008
 Hav Rajput Prakash L S (No. 15357623N now JC-378559H), 01 Nov 2008
 Hav Sanat Kumar Pal (No. 15353301W now JC-378591X), 01 Dec 2008
 Hav Ravindran Nair E A (No. 15357675K now JC-378592A), 01 Dec 2008
 Hav R Kumar Lakhotra (No. 15358239Y now JC-378593H), 01 Dec 2008
 Hav Partap Singh (No. 15358459H now JC-378700Y), 01 Jan 2009
 Hav Patil Suresh C (No. 15350792M now JC-378701F), 01 Jan 2009
 Hav Vinod Kumar Sharma (No. 15354649X now JC-378702K), 01 Jan 2009
 Hav Ramesh Chandra (No. 15352434A now JC-378703M), 01 Jan 2009
 Hav Mohan Kumar P V (No. 15353827H now JC-378704P), 01 Jan 2009
 Hav Subh Karan Singh (No. 15358166X now JC-378705X), 01 Jan 2009
 Hav Umesh Chandra Verma (No. 15356985H now JC-378706A), 01 Jan 2009
 Hav Ziaul Islam Mazumder (No. 15354475H now JC-378707H), 01 Jan 2009
 Hav Asha Ram (No. 15358738N now JC-378742L), 01 Feb 2009
 Hav Dinesh Singh (No. 15350686N now JC-378743N), 02 Feb 2009
 Hav Ujjwal Kumar Pal (No. 15355256N now JC-378744W), 02 Feb 2009
 Hav Sajjan George (No. 15357877L now JC-378745Y), 19 Feb 2009
 (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Feb 2009 without effect on pay and allowances)
 Hav Vijay Singh (No. 14256023N now JC-378746F), 02 Feb 2009
 Hav Suresh Chand Yadav (No. 15360082H now JC-378747K), 02 Feb 2009

Hav Balbir Singh (No. 15357687Y now JC-378776Y),
27 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Lauhar Singh (No. 15352304X now JC-378777P),
01 Mar 2009

Hav Gambhir Singh Basera (No. 15359983H now JC-
378778K), 01 Mar 2009

Hav Harver Singh (No. 15360190M now JC-378779M),
01 Mar 2009

Hav Rajendran V (No. 14268769W now JC-378780F),
01 Mar 2009

Hav Sahabuddin Ansari (No. 15354858P now JC-378781K),
01 Mar 2009

Hav P K Samantaray (No. 15360878Y now JC-378782M),
01 Mar 2009

Hav Pradeep S (No. 15360981K now JC-378783P),
01 Mar 2009

Hav Surender Singh (No. 14259196W now JC-378784X),
01 Mar 2009

Hav Dharamvir Singh (No. 15359165F now JC-378825W),
01 Apr 2009

Hav N R V Ramana Reddy (No. 15364131X now JC-
378826Y), 01 Apr 2009

Hav Nawal Kishore (No. 15358696M now JC-378827F),
01 Apr 2009

Hav Mony Kuttan K (No. 15350419M now JC-378828K),
01 Apr 2009

Hav Sunil Kumar K (No. 15353567H now JC-378829M),
01 Apr 2009

Hav Rajender Prasad (No. 15357970M now JC-378830F),
08 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Hav M D Tabibor Rahman (No. 15359229F now JC-
378831K), 01 Apr 2009

Hav Dev Prasad Yadav (No. 15364139K now JC-378832M),
17 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Sadar Singh Bisht (No. 14269228F now JC-378833P),
01 Apr 2009

Hav Tek Singh (No. 15360683N now JC-378834X), 04 Apr
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Y P Singh Rawat (No. 15358103P now JC-378835A),
01 Apr 2009

Hav Sukh Ram (No. 15363257L now JC-378836H), 01 Apr
2009

Hav Mahesh Chand (No. 15364282W now JC-378916A),
01 May 2009

Hav Vijay Kumar Tiwari (No. 15364332W now JC-378935L),
01 Jun 2009

Hav Subhash Chander (No. 15356813N now JC-378936N),
01 Jun 2009

Hav K S Ravisankar (No. 15356327W now JC-378937W),
19 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
without effect on pay and allowances)

Hav V Kathiravan (No. 15353122W now JC-378938Y),
01 Jun 2009

Hav Kaushal Kumar Singh (No. 15364602A now JC-
378939F), 01 Jun 2009

Hav Janardan Giri (No. 15357892A now JC-378940W),
01 Jun 2009

To be Nb Sub (OP SPEC)

Hav Ram Niwas (No. 14267428Y now JC-377716X),
01 Dec 2007

Hav Radhay Shyam (No. 15350113K now JC-378817X),
01 Feb 2008

Hav Sabu K M (No. 15350265L now JC-378818A), 01 Feb
2008

Hav Jadav Chandra Sahu (No. 15353455H now JC-
378567F), 08 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Sheshmani Pandey (No. 15352577A now JC-378594L),
01 Dec 2008

Hav Chandra Bhan Singh (No. 15352813W now JC-
378595N), 01 Dec 2008

Hav Prem Singh (No. 15352652Y now JC-378596W),
01 Dec 2008

Hav Chavan Kisan Joti (No. 15353133H now JC-378597Y),
01 Dec 2008

Hav Tajber Singh Bisht (No. 15353607Y now JC-378708L),
14 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Mukesh Chandra Tomar (No. 15352871A now JC-
378709N), 01 Jan 2009

- Hav Jadhan Dilip K Rao (No. 15350778A now JC-378715F), 02 Jan 2009
- Hav Bhakta Bandhu Behera (No. 15353490L now JC-378716K), 02 Jan 2009
- Hav Swaran Singh Soroha (No. 14266190X now JC-378717M), 02 Jan 2009
- Hav Govind Singh Samant (No. 15350222W now JC-378718P), 02 Jan 2009
- Hav Dan Singh (No. 15350250H now JC-378719X), 02 Jan 2009
- Hav Bani Singh (No. 15351934L now JC-378748M), 01 Feb 2009
- Hav Surendra Singh (No. 15352166F now JC-378749P), 01 Feb 2009
- Hav Keshav Lal (No. 15353165L now JC-378750K), 01 Feb 2009
- Hav Amar Singh (No. 15353159X now JC-378751M), 01 Feb 2009
- Hav Dhiraj Singh (No. 15352896M now JC-378785A), 01 Mar 2009
- Hav Shiv Dayal Singh (No. 15353183N now JC-378786H), 01 Mar 2009
- Hav Rajveer (No. 15353180A now JC-378787L), 01 Mar 2009
- Hav Lal Chand (No. 15353179L now JC-378788N), 01 Mar 2009
- Hav Subhash Pratap Singh (No. 15353197N now JC-378789W), 01 Mar 2009
- Hav Rakam Singh (No. 15353262H now JC-378790L), 01 Mar 2009
- Hav Laxman Singh (No. 15352910N now JC-378837L), 01 Apr 2009
- Hav Narendera Singh (No. 15353269M now JC-378838N), 01 Apr 2009
- Hav Atendera Kumar (No. 15353290P now JC-378839W), 01 Apr 2009
- Hav Vinod Kumar (No. 15353342A now JC-378840L), 01 Apr 2009
- Hav Jagdish Raj (No. 15353090Y now JC-378841N), 01 Apr 2009
- Hav Udaya Kumar M (No. 14265570K now JC-378842W), 01 Apr 2009
- Hav Sanat Kumar Biswal (No. 15353638Y now JC-378843Y), 01 Apr 2009
- Hav Sambhu Nath Jha (No. 15350360X now JC-378844F), 06 Apr 2009
- (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Hav Vinod Kumar Rai (No. 15353410H now JC-378845K), 01 Apr 2009
- Hav Bina Kumar Singha (No. 14268415N now JC-378846M), 01 Apr 2009
- Hav Shalva Raj T S (No. 15350260M now JC-378847P), 01 Apr 2009
- Hav Parashuram Ram (No. 15353959W now JC-378848X), 01 Apr 2009
- Hav Bhuwan Chandra (No. 15354072H now JC-378849A), 01 Apr 2009
- Hav Dan Singh Bohara (No. 15354074N now JC-378850P), 01 Apr 2009
- Hav Ganpat Singh Rawat (No. 15354058W now JC-378917H), 01 May 2009
- Hav Sher Singh Yadav (No. 15354449F now JC-378918L), 01 May 2009
- Hav Ramesh Chand (No. 15354119H now JC-378919N), 01 May 2009
- Hav Abdhesh P D Patel (No. 15354312P now JC-378941Y), 01 Jun 2009
- Hav Suresh A Chopkar (No. 15350665X now JC-378942F), 01 Jun 2009
- Hav S Narayan Singh (No. 14269369W now JC-378968W), 01 Jun 2009
- Hav Dharmvir Singh (No. 15352672M now JC-378990F), 01 Jun 2009
- Hav Sanatan Sahoo (No. 15353535A now JC-378991K), 01 Jun 2009
- Hav Ranvir Singh (No. 15354631F now JC-378996H), 02 Jun 2009
- Hav Samsher Singh Baghel (No. 15351991M now JC-378999W), 02 Jun 2009
- Hav A V I Reddy L Eswara P D (No. 15351665K now JC-379002H), 02 Jun 2009
- Hav Raj Kumar Yadav (No. 15353688K now JC-379003L), 02 Jun 2009
- Hav Jaya Dev Singh (No. 15353166N now JC-379005W), 02 Jun 2009
- Hav Dinesh Kumar (No. 15353273P now JC-379007F), 02 Jun 2009

A V BAGUR
Under Secy